

श्रीराम

जयद्रथ-वध

[खण्ड काव्य]

श्री मैथिलीशरण गुप्त

प्रकाशक—

साहित्य-सदन
चिरगाँव (झॉसी)

छत्तीसवीं संस्करण
२००७ वि०

मूल्य
॥॥)

श्री रामकिशोर गुप्त द्वारा
माहित्य प्रेस, चिरगाँव (झाँसी) में मुद्रित ।

समर्पण

श्रीमान् पण्डित महावीरप्रसादजी द्विवेदी की सेवा में—

आचार्य !

पाई तुम्हीं से वस्तु जो कैसे तुम्हे अर्पण करूँ ?
पर क्या परीक्षा-रूप में पुस्तक न यह आगे धरूँ ?
अतएव मेरी धृष्टता यह ध्यान में मत दीजिए ,
कृपया इसे स्वीकार कर कृत-कृत्य मुझको कीजिए ॥

अनुचर
मैथिलीशरण

श्रीगणेशाय नमः

जयद्रथ-वध

प्रथम सर्ग

चाचक ! प्रथम सर्वत्र ही 'जय जानकी-जीवन' कहो ,
फिर पूर्वजों के शाल की शिक्षा-तरङ्गों में बहो ।
दुख, शोक जब जो आ पड़े, सो धैर्यपूर्वक सब सहो ,
होगी सफलता क्यों नहीं कर्तव्य-पथ पर दृढ़ रहो ।
अधिकार खोकर बैठ रहना, यह महा दुष्कर्म है ;
न्यायार्थ अपने बन्धु को भी दण्ड देना धर्म है ।
इस तत्व पर ही कौरवों से पाण्डवों का रण हुआ ,
जो भव्य भारतवर्ष के कल्पान्त का कारण हुआ ॥
सब लोग हिल मिल कर चलो, पारस्परिक ईर्ष्या तजो ,
भारत न दुर्दिन देखता मचता महाभारत न जो ।
हो स्वप्नतुल्य सदैव को सब शौर्य सहस्रा खो गया ,
हा । हा । इसी समरान्नि में सर्वस्व स्वाहा होगया ।

दुर्वृत्त? दुर्योधन न जो शठता-सहित हठ ठानता ,
 जो प्रेम-पूर्वक पाण्डवों की मान्यता को मानता ,
 तो डूबता भारत न यो रण-रक्त-पारावार २ में ,
 'ले डूबता है एक पापी नाव को मङ्गधार में ।'
 हा ! बन्धुओं के ही करों से बन्धुगण मारे गये !
 हा ! तात से सुत, शिष्य से गुरु स-हठ संहारे गये !
 इच्छा-रहित भी वीर पाण्डव रत हुए रण में अहो !
 कर्त्तव्य के वश विज्ञ जन क्या क्या नहीं करते कहो ।
 यह अति अपूर्व कथा हमारे ध्यान देने योग्य है ,
 जिस विषय से सम्बन्ध हो वह जान लेने योग्य है ,
 अतएव कुछ आभास इसका है दिया जाता यहाँ ,
 अनुमान थोड़े से बहुत का है किया जाता यहाँ ॥
 रणधीर द्रोणाचार्य-कृत दुर्भेद्य चक्रव्यूह को ,
 शस्त्रास्त्र-सज्जित, ग्रथित, विस्तृत, शूरवीर-समूह को ,
 जब एक अर्जुन के बिना पाण्डव न भेदन कर सके ,
 तब बहुत ही व्याकुल हुए, सब यत्न कर करके थके ।
 यों देखकर चिन्तित उन्हें धर ध्यान समरोत्कर्ष का ,
 प्रस्तुत हुआ अभिमन्यु रण को शूर षोडश वर्ष का ।
 वह वीर चक्रव्यूह-भेदन में सहज सज्ज्ञान था ,
 निज जनक अर्जुन-तुल्य ही बलवान था, गुणवान था ॥

१ बुरे चरित्रवाला । २ रण = युद्ध, रक्त = खून, पारावार = समुद्र ।

“हे तात ! तजिए सोच को, है काम ही क्या क्लेश का ?
 मैं द्वार उद्घाटित करूँगा व्यूह-बीच प्रवेश का ।”
 यो पाण्डवो से कह, समर को वीर वह सज्जित हुआ ,
 छवि देख उसकी उस खमय सुरराज भा लज्जित हुआ ।
 नर-देव-सम्भव १ वीर वह रण-मध्य जाने के लिए ,
 बोला वचन निज सारथी से रथ सजाने के लिए ।
 यह विकट साहस देख उसका, सूत विस्मित होगया ;
 कहने लगा इस भाँति फिर वह देख उसका वय नया—
 “हे शत्रुनाशन ! आपने यह भार गुरुतर है लिया ,
 है द्रोण रण-पण्डित, कठिन है व्यूह-भेदन की क्रिया ।
 रण-वित्र यद्यपि आप है पर सहज ही सुकुमार हैं ,
 सुख-सहित नित पोषित हुए, निजवंश-प्राणाधार हैं ॥”
 सुन सारथी की यह विन्तय बोला वचन वह वीर यो—
 करता घनाघनर गगन मे निर्घोष अति गम्भीर ज्यों ।
 हे सारथे ! हैं द्रोण क्या, देवेन्द्र भी आकर अड़े ,
 है खेल क्षत्रिय बालकों का व्यूह-भेदन कर लड़े ।
 श्रीराम के ह्यमेध से अपमान अपना मान के ,
 मख-भ्रम्र जब लव आर कुश ने जय किया रण ठान के ।
 अभिमन्यु षोडष वर्ष का फिर क्यों लड़े रिपु से नहीं ,
 क्या आर्य-वीर विपक्ष-वैभव देख कर डरते कहीं ?

१ मनुष्य रूपी देवता से उत्पन्न । २ वरसने वाला मेघ ।

सुन कर गजों का घोष उसको समझ निज अपयश-कथा ,
 उन पर झपटता सिंह-शिशु भी रोष कर जब सर्वथा ।
 फिर व्यूह-भेदन के लिए अभिमन्यु उद्यत क्यों न हो ,
 क्या वीर-बालक शत्रु का अभिमान सह सकते कहो ?
 मैं सत्य कहता हूँ, सखे ! सुकुमार मत मानों मुझे ,
 यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा जानों मुझे !
 है और की तो बात ही क्या, गर्व मैं करता नहीं ,
 मामा१ तथा निज तात से भी समर में डरता नहीं ॥
 ज्यो ऊनघोडपर वर्ष के राजीवलोचन राम ने ,
 मुनि-मख किया था पूर्ण वध कर राक्षसों को सामने ।
 कर व्यूह-भेदन आज त्यों ही वैरियों को मार के ,
 निज तात का मैं हित करूँगा विमल यश विस्तार के ॥”
 यों कह वचन निज सूत३ से वह वीर रण में मन दिये ,
 पहुँचा शिविर मे उत्तरा से विदा लेने के लिए ।
 सब हाल उसने निज प्रिया से जब कहा जाकर वहाँ ,
 कहने लगी तब वह स्वपति के अति निकट आकर वहाँ—
 “मैं यह नहीं कहती कि रिपु से जावतेश लड़ें नही ,
 तेजस्वियों की आयु भी देखी भला जाती कहीं ?
 मैं जानती हूँ नाथ ! यह, मैं मानती भी हूँ तथा—
 उपकरण४ से क्या, शक्ति में ही सिद्धि रहती सर्वथा ॥

क्षत्राणियों के अर्थ भी सबसे बड़ा गारव यही—
 सज्जित करें पति-पुत्र को रण के लिए जो आप ही ।
 जा वीर पति के कीर्ति-पथ में विघ्न-बाधा डालती—
 होकर सती भी वह कहाँ कर्त्तव्य अपना पालती ?
 अपशकुन आज परन्तु मुझको हो रहे सच जानिए ,
 मत जाइए सम्प्रति समर में, प्रार्थना यह मानिए ।
 जाने न दूँगी आज मैं प्रियतम तुम्हें संग्राम में ,
 उठती बुरी हूँ भावनाएँ हाथ इस हृद्दाम में ॥
 है आज कैसा दिन न जाने, देव-गण अनुकूल हो ;
 रक्षा करे प्रभु मार्ग में जो शूल हों वे फूल हों ।
 कुछ राज-पाट न चाहिए, पाऊँ न क्यों मैं त्रास ही ;
 हे उत्तरा के धन ! रहो तुम उत्तरा के पास ही ॥'१
 कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गये ,
 हिम के कणों से पूर्ण मानों हो गये पङ्कज नये ।
 निज प्राणपति के स्कन्ध पर रखकर वदन वह सुन्दरी ,
 करने लगी फिर प्रार्थना नाना प्रकार व्यथा-भरी ॥
 यों देखकर व्याकुल प्रिया को सान्त्वना देता हुआ ,
 उसका मनोहर पाणि-पल्लव हाथ में लेता हुआ ,
 करता हुआ वारण उसे दुर्भावना की भीति से ,
 कहने लगा अभिमन्यु यों प्यारे वचन अति प्रीति से—
 “जीवनमयी, सुखदायिनी, प्राणाधिके, प्राणप्रिये !
 कातर तुम्हें क्या चित्त में इस भौंति होना चाहिए ?

हो शान्त सोचो तो भला, क्या योग्य है तुमको यही ,
 हा ! हा ! तुम्हारी विकलता जाती नहीं मुझसे सही ॥
 वीर-स्तुपा^१ तुम, वीर-रमणी, वीर-गर्भा हो तथा ,
 आश्चर्य, जो मम रण-गमन से हो तुम्हें फिर भी व्यथा !
 हो जानती बातें सभी कहना हमारा व्यर्थ है ;
 बदला न लेना शत्रु से कैसा अधर्म अनर्थ है ?
 निज शत्रु का साहस कभी बढ़ने न देना चाहिए ,
 बदला समर में वैरियो से शीघ्र लेना चाहिए ।
 पापी जनो को दण्ड देना चाहिए समुचित सदा ,
 वर वीर क्षत्रिय-वंश का कर्त्तव्य है यह सर्वदा ॥
 इन कौरवों ने हा ! हमें सन्ताप कैसे है दिये ,
 सब सुन चुकी हो तुम इन्होंने पाप जैसे हैं किये !
 फिर भी इन्हें मारे विना हम लोग यदि जीते रहे ,
 तो सोच लो संसार भर के वीर हमसे क्या कहें ?
 जिस पर हृदय का प्रेम होता सत्य और समग्र है ,
 उसके लिए चिन्तित तथा रहता सदा वह व्यग्र है ।
 होता इसी से है तुम्हारा चित्त चञ्चल हे प्रिये !
 यह सोचकर सो अब तुम्हें शङ्कित न होना चाहिए—
 रण में विजय पाकर प्रिये । मैं शीघ्र आऊँगा यहाँ .
 चिन्तित न हो मन में, न तुमको भूल जाऊँगा वहाँ !

देखो, भला भगवान ही जब है हमारे पक्ष में ,
 जीवित रहेगा कौन फिर आकर हमारे लक्ष्य में ?”
 यो धैर्य देकर उत्तरा को, हो विदा सद्भाव से ;
 वीराप्रणी अभिमन्यु पहुँचा सन्य में अति चाव से ।
 स्वर्गीय साहस देख उसका सौगुने उत्साह से ,
 भरने लगे सब सैनिकों के हृदय हर्ष-प्रवाह से ॥
 फिर पाण्डवों के मध्य में अति भव्य निज रथ पर चढा ,
 रणभूमि में रिपु-सैन्य सम्मुख वह सुभद्रा-सुत बढा ।
 पहले समय में ज्यो सुरों के मध्य में सज कर भले ;
 थे तारकासुर मारने गिरिनन्दिनी-नन्दन चले ॥
 वाचक ! विचारो तो जरा- इस समय की अद्भुत छटा ,
 कैसी अलौकिक घिर रही है शूरवीरों की घटा ।
 दुर्भेद्य चक्रव्यूह सम्मुख धार्तराष्ट्र २ रचे खड़े .
 अभिमन्यु उसके भेदने को हो रहे आतुर बड़े ॥
 तत्काल ही दोनों दलों में घोर रण होने लगा ,
 प्रत्येक पल में भूमि पर वर वीर-गण सोने लगा ।
 रोने लगीं मानो दिशाएँ पूर्ण हो रण-घाष से ,
 करने लगे आघात सम्मुख शूर-सैनिक रोष से ॥
 इस युद्ध में सौभद्र ३ ने जो की प्रदर्शित वीरता ,
 अनुमान में आता नहीं उसकी अगम गम्भीरता ।

१ निशाना । २ दुर्योधनादिक धृतराष्ट्र के पुत्र । ३ अभिमन्यु ।

जिस धीरता से शत्रुओं का सामना उसने किया ,
 असमर्थ हो उसके कथन में मौन वाणी ने लिया ।
 करता हुआ कर-निकर^१ दुर्द्धर सृष्टि के संहार को ,
 कल्पान्त में सन्तप्त करता सूर्य्य ज्यों संसार को—
 सब ओर त्यो ही छाड़ कर निज प्रखरतर शर-जाल को ,
 करने लगा वह वीर व्याकुल शत्रु-सन्य विशाल को ।
 शर खींच उसने तूण^२ से कन्न, किधर सन्धाना उन्हें ;
 बस विद्ध होकर ही विपक्षी-वृन्द ने जाना उन्हें ।
 कोदण्ड^३ कुण्डल-तुल्य ही उसका वहाँ देखा गया ,
 अविराम रण करता हुआ वह राम सम लेखा गया ।
 कटने लगे अगणित भटों के रुण्ड-मुण्ड जहाँ तहाँ ,
 गिरने लगे कट कर तथा कर-पद सहस्रों के वहाँ ।
 केवल कलाई ही कुतूहल-वश किसी की काट दी ,
 क्षण मात्र में ही अरिगणों से भूमि उसने पाट दी ।
 करता हुआ वध वैरियों का वर-शोधन के लिए ,
 रण-मध्य वह फिरने लगा अति दिव्यद्युति धारण कियो
 उस काल सूत सुमित्र के रथ हॉकने की रीति से ,
 देखा गया वह एक ही दस-बीस-सा अति भीति से ।
 उस काल जिस जिस ओर वह संग्राम करने को गया ,
 भगते हुए अरि-वृन्द से मैदान खाली हो गया ।

१ कर = किरण, निकर = समूह । २ तरकस । ३ धनुष ।

रथ-पथ कहीं भी रुद्ध उसकी दृष्टि में आया नहीं ;
 सम्मुख हुआ जो वीर वह मारा गया तत्क्षण वहाँ ॥
 ज्यो भेद जाता भानु का कर अन्धकार-समूह को ,
 वह पार्थनन्दन घुस गया त्यों भेद चक्रव्यूह को ।
 थे वीर लाखों पर किसी से गति न उसकी रुक सकी ,
 सब शत्रुओ की शक्ति उसके सामने सहसा थी ॥
 पर साथ भी उसके न कोई जा सका निज शक्ति से ,
 था द्वार-रक्षक नृप जयद्रथ सबल शिव की भक्ति से ।
 अर्जुन विना उसको न कोई जीत सकता था कही ,
 थे किन्तु उस संग्राम मे भवितव्यता-वश वे नहीं ॥
 तब विदित कर्ण-कनिष्ठ भ्राता बाण बरसा कर बड़े ,
 "रे खल ! खड़ा रह" वचन यो कहने लगा उससे कड़े ।
 अभिमन्यु ने उनको श्रवण कर प्रथम कुछ हँस भर दिया ,
 फिर एक शर से शीघ्र उसका शीश खण्डित कर दिया ॥
 यो देख मरते निज अनुज को कर्ण अति क्षोभित हुआ ,
 सन्तप्त स्वर्ण-समान उसका वर्ण अति शोभित हुआ ।
 सौभद्र पर सौ बाण छोड़े जो अतीव कराल थे ,
 आः ! बाण थे वे या भयङ्कर पक्षधारी व्याल थे ॥
 अर्जुन-तनय ने देख उनको वेग से आते हुए ,
 खण्डित किया भूट बीच में ही धैर्य दिखलाते हुए ।
 फिर हस्तलाघव से उसी क्षण काट के रिपु चाप को ,
 रथ, सूत, रक्षक नष्ट कर सौंपा उसे सन्ताप को ॥

यों कर्ण को हाग समझ कर चित्त में अति क्रुद्ध हो ,
 दुर्योधनात्मज वीर लक्ष्मण आगया फिर युद्ध को ।
 सम्मुख उसे अवलोक कर अभिमन्यु या कहने लगा ,
 मानों भयंकर सिन्धु-नद हृद तोड़ कर बहने लगा—
 “तुम हो हमारे बन्धु इससे हम जताने है तुम्हें ,
 मत जानियो तुम यह कि हम निर्बल बताते हैं तुम्हें ,
 अब इस समय तुम निज जनों को एक बार निहार लो ,
 यम-धाम में ही अन्यथा होगा मिलाप विचार लो ।”
 उस वीर को, सुन कर वचन ये, लग गई वस आग-सी ,
 हो क्रुद्ध उसने शक्ति छोड़ी एक निष्ठुर नाग-सी ॥
 अभिमन्यु ने उसको विफल कर “पाण्डवों की जय” कही ,
 फिर शर चढ़ाया एक जिसमें ज्योति-सी थी जग रही ।
 उस अर्द्धचन्द्राकार शर ने छूट कर कोदण्ड से ,
 छेदन किया रिपु-कण्ठ तत्क्षण फलकश-धार प्रचण्ड से ।
 होता हुआ इस भाँति भासित शीश उसका गिर पड़ा ,
 होता प्रकाशित दूट कर नक्षत्र ज्यों नभ से बड़ा ॥
 तत्काल हाहाकार-युत रिपु-पक्ष में दुख छा गया ,
 फिर दुष्ट दुःशासन समर में शीघ्र सम्मुख आगया ।
 अभिमन्यु उसको देखते ही क्रोध से जलने लगा ,
 निश्वास बारम्बार उसका उष्णतर चलने लगा ।

“रे रे नराधम नारकी ! तू था बतल अब तक कहीं ?
 मैं खाजता फिरता तुझे सब आर कब से हूँ यहाँ ।
 यह देख, मेरा बाण तेरे प्राण-नाश-निमित्त है ,
 तैयार हो, तेरे अघो का आज प्रायश्चित्त है !
 सब सैनिकों के सामने ही आज बध करके तुझे ,
 संसार में माता-पिता से है उद्भूत होना सुझे ।
 मेरे करो से अब तुझे कोई बचा सकता नहीं ,
 पर देखना, रणभूमि से तू भाग मत जाना वही ”
 कह्यो वचन अभिमन्यु ने छोड़ा धनुष से बाण को ,
 रिपु-भाल में वह घुस गया भट भेद शीर्ष-त्राण१ को ।
 जब रक्त से भोंगा हुआ वह गिर पड़ा पाकर व्यथा ,
 सन्ध्या स्रमय पश्चिम-जलधि में अरुण रवि गिरता यथा ॥
 मूर्च्छित समझ उसको समर से ले गया रथ सारथी ,
 लड़ने लगा तब नृप वृहद्बल उचित नाम महारथी ।
 कर खेल क्रीडासक्त हरि२ ज्यो मारता करि३ को कभी ,
 मारा उसे अभिमन्यु ने त्यों छिन्न करके तनु सभी ॥
 उस एक ही अभिमन्यु से यो युद्ध जिस जिसने किया ,
 नारा गया अथवा समर से विमुख होकर ही जिया ।
 जिस भौति विद्युद्दाम से होती सुशोभित घन-घटा ,
 सर्वत्र छिटकाने लगा वह समर में शस्त्रच्छटा ॥

१ सिर का कवच, टोप । २ सिंह । ३ हाथी ।

तब कर्ण द्राणाचार्य से साश्र्वर्य्य यो कहने लगा—
 “आचार्य ! देखा तो नया यह सिंह सोते से जगा !
 रघुवर-विशिख से सिन्धु-सम सब सैन्य इससे व्यस्त है !
 यह पार्थ-नन्दन पार्थ से भी धीर वीर प्रशस्त है !
 होना विमुख संग्राम से है पाप वीरा को महा ,
 यह साचकर ही इस समय ठहरा हुआ हूँ मैं यहाँ ।
 जैसे बने अब मारना ही योग्य इसको है यही .
 सच जान लीजे अन्यथा निस्तार फिर होगा नहीं ॥”
 वीराप्रणी अभिमन्यु ! तुम हो धन्य इस संसार में ,
 है शत्रु भी यों मग्न जिसके शौर्य्य-पारावार में ।
 होता तुम्हारे निकट निष्प्रभ तेज शशि का सूर का ,
 करते विपक्षी भी सदा गुण-गान सच्चे शूर का ॥
 तब सप्त रथियों ने वहाँ रत हो महा दुष्कर्म मे—
 मिलकर किया आरम्भ उसको विद्ध करना मर्म मे—
 कृप. कर्ण, दुःशासन, सुयाधन, शकुनि, सुत-युत द्रोण भी ,
 उस एक बालक को लगे वे मारने बहु विध सभी ॥
 अर्जुन-तनय अभिमन्यु तो भी अचल-सम अविचल रहा ,
 उन सप्त रथियो का वहाँ आघात सब उसने सहा ।
 पर एक साथ प्रहार-कर्त्ता हो चतुर्दश कर जहाँ ,
 युग कर कहो, क्या क्या यथायथ कर सके विक्रम वहाँ ?

कुछ देर में जब रिपु-शरों से अश्व उसके गिर पड़े ,
 तब कूद कर रथ से चला वह, थे जहाँ वे सब खड़े ,
 जब तक शरीरागार^१ में रहते जरा भी प्राण है ,
 करते समर से वीर जन पीछे कभी न प्रयाण है ॥
 फिर नृत्य-सा करता हुआ धन्वा लिये निज हाथ में ,
 लड़ने लगा निर्भय वहाँ वह शूरता के साथ में ।
 था यद्यपि अन्तिम दृश्य यह उसके अलौकिक कर्म का ,
 पर मुख्य परिचय भी यही था वीर जन के धर्म का ॥
 होता प्रविष्ट मृगेन्द्र-शावक ज्यो गजेन्द्र-समूह भे ,
 करने लगा वह शौर्य त्यां उन वैरियों के व्यूह में ।
 तब छोड़ते कोदण्ड से सब ओर चण्ड-शरावली ,
 मार्तण्ड-मण्डल के उदय की छवि निली उसको अली ॥
 यो विक्रम देख उसका धैर्य रिपु खोने लगे ,
 उसके भयङ्कर वेग से अस्थिर सभी होने लगे ।
 हँसने लगा वह वीर उनकी धीरता यह देख के ,
 फिर यों वचन कहने लगा तृण-तुल्य उनको लेख के—
 “मैं एक तुम बहु सहचरो से युक्त विश्रुत सात हो ,
 एकत्र फिर अन्याय से करते सभी आघात हो ।
 हाते विमुख तो भी अहो ! झिलता न मेरा वार है ,
 तुम वीर कैसे हो, तुम्हें पिक्कार सौ सौ वार है ।”

१ शरीररूपी घर ।

उस शूर के सुन यों वचन बोला सुयोधन आप यों—
 “है काल अब तेरा निकट करता अनर्थ प्रलाप क्यों ?
 जैसे बने निज वैरियों के प्राण हरना चाहिए,
 निज मार्ग निष्कण्टक सदा सब भौंति करना चाहिए ॥”
 “यह कथन तेरे योग्य ही है” प्रथम यों उत्तर दिया,
 खर-तर-शरों से फिर उसे अभिमन्यु ने मूर्च्छित किया ।
 उस समय ही जो पार्श्व से छोड़ा गया था तान के,
 उस कर्ण-शर ने चाप इसका काट डाला आन के ॥
 तब खोंच कर खर-खड्ग फिर वह रत हुआ रिपु-नाश में,
 चमकीं प्रलय की विजलियाँ चतघोर समराकाश में ।
 पर हाय ! वह आलोक-मण्डल अल्प ही मण्डित हुआ,
 चञ्चक-विपक्षी वृन्द से वह खड्ग भी खण्डित हुआ ।
 यों रिक्त-हस्त हुआ जहाँ वह वीर रिपु-संघात में,
 घुसने लगे सब शत्रुओं के बाण उसके गात में ।
 वह पाण्डु-वंश प्रदीप यो शोभित हुआ उस काल में—
 सुन्दर सुप्तन उयो पड़ गया हो कण्टकों के जाल में ॥
 संघ्रास में निज शत्रुओं की देख कर यह नीचता,
 कहने लगा वह यों वचन दृग युग करो से मीचता—
 “निःशस्त्र पर तुम वीर बन कर वार करते हो अहो !
 है पाप तुमको देखना भी पामरं ! सम्मुख न हो ॥
 दो शस्त्र पहले तुम मुझे, फिर युद्ध सब मुझसे करो,
 यो स्वार्थ-साधन के लिए मत पाप-पथ में पद धरो ।

कुछ प्राण-भिक्षा मैं न तुमसे माँगता हूँ भीति से ,
 बल शस्त्र ही मैं चाहता हूँ धर्म-पूर्वक नीति से ॥
 कर में मुझे तुम शस्त्र देकर फिर दिखाओ वीरता ,
 देखूँ, यहाँ फिर मैं तुम्हारी धीरता, गम्भीरता ।
 हो सात क्या, सौ भी रहो तो भी रुलाऊँ मैं तुम्हे ,
 कर पूर्ण रण-लिप्सा^१ अभी क्षण में सुलाऊँ मैं तुम्हें ॥
 निःशस्त्र पर आघात करना सर्वथा अन्याय है ,
 स्वीकार करता बात यह सब शूर-जन-समुदाय है ।
 पर जान कर भी हा ! इसे आती न तुमको लाज है ,
 होता कलङ्कित आज तुमसे शूरवीर-समाज है ॥
 है नीच ये सब शूर पर आचार्य्य । तुम 'आचार्य' हो ,
 वरवीर-विद्या-विज्ञ मेरे तात-शिक्षक आर्य्य हो ।
 फिर आज इनके साथ तुमसे हो रहा जो कर्म है ,
 मैं पूछता हूँ, वीर का रण में यही क्या धर्म है ?
 यह सत्य है कि अधर्म से मैं निहित होता हूँ अभी ,
 पर शीघ्र इस दुःकर्म का तुम दण्ड पाओगे सभी ।
 क्रोधाग्नि ऐसी पाण्डवों की प्रज्वलित होगी यहाँ ,
 तुम शीघ्र जिसमें भस्म होगे तूलर-तुल्य जहाँ तहाँ ॥
 मैं तो अमर होकर यहाँ अब शीघ्र सुरपुर को चला ,
 पर याद रखो, पाप का होता नहीं है फल भला ।

१ लिप्सा = इच्छा । २ रुई ।

तुम और मेरे अन्य रिपु पामर कहावेंगे सभी ,
 सुन कर चारत मेरा सदा आँसू बहावेंगे सभी ॥
 हे तात ! हे मातुल ! जहाँ हो है प्रणाम तुम्हें वहीं ,
 अभिमन्यु का इस थाँति मरना भूल मत जाना कहीं ?
 कहता हुआ वह वीर यां रण-भूमि में फिर गिर पड़ा ,
 हो भङ्ग शृङ्ग सुमेरु गिरि का गिर पड़ा हो ज्यों बड़ा ॥
 इस भाँति उसकां भूमि पर देखा पतित होते वदा ,
 दुःशील दुःशासन तनय ने शीश में मारी गदा ।
 दृग वन्द कर तब वह चशोधन सर्वदा को खो गया ,
 हा । एक अनुपम रत्न मानो मेदिनी का खो गया ॥
 हे वीरवर अभिमन्यु ! अब तुम हो यदपि सुर-लोक में ,
 पर अन्त तक रोते रहेंगे हम तुम्हारे शोक में ।
 दिन दिन तुम्हारी कीर्ति का विस्तार होगा विश्व में ,
 तब शत्रुओं के नाम पर धिक्कार होगा विश्व में ॥

द्वितीय सर्ग

इस भौंति पाई वीरगति सौभद्र ने संग्राम में ,
होने लगे उत्सव निहत भी शत्रुओं के धाम में ।
पर शोक पाण्डव-पक्ष में सर्वत्र ऐसा छा गया ,
मानो अचानक सुखद जीवन-सार सर्व विला गया ॥
प्रिय मृत्यु का अप्रिय महा संवाद पाकर विष-भरा ,
चित्रस्थ-सी, निर्जीव मानो, रह गई हत उत्तरा ।
संज्ञा-रहित तत्काल ही फिर वह धरा पर गिर पड़ी ,
उद्य काल सूच्छ्वा भी अहो ! हितकर हुई उसको वड़ी ॥
कुछ देर तक दुर्देव ने रहने न दी वह भी दशा ,
भट दासियों से की गई जागृत वहाँ वह परवशा ।
तब तपन नामक नरक से भी यातना पाकर कड़ी ,
विक्षिप्त-सी तत्क्षण शिविर से निकल कर वह चल पड़ी ॥
अपने जनो द्वारा उठाकर समर से लाये हुए ;
अण-पूर्ण, निष्प्रभ और शोणित-पङ्क से छाये हुए ,
प्राणेश-शव के निकट जाकर चरम दुख सहती हुई ,
वह तब-वधू फिर गिर पड़ी “हा नाथ ! हा !” कहती हुई ॥

इसके अनन्तर अङ्क में रक्खे हुए सुस्नेह से ,
 शोभित हुई इस भाँति वह निर्जीव पति के देह से—
 मानो निदाधारम्भ में खन्तप्त आतप जाल से ,
 छादित हुई विपिनस्थली नव-पतित किंशुक-शाल से ।
 फिर पीट कर सिर और छाती अश्रु बरमाती हुई ,
 कुररी-सदृश सकरुण गिरा से दैन्य दरसाती हुई ;
 बहु विध विलाप-प्रलाप वह करने लगी उस शोक में ,
 निज प्रिय-वियोग समान दुख होता न कोई लोक में ॥

“मति, गति, सुकृति, धृति, पूज्य, पति, प्रिय, स्वजन, शोभन-सम्पदा,
 हा ! एक ही जो विश्व में सर्वस्व था तेरा सदा ।
 यों नष्ट उसको देख कर भी बन रहा तू भार है !
 हे कष्टमय जीवन । तुझे धिक्कार वारम्बार है ॥
 था जो तुम्हारे सब सुखों का सार इस संसार में ,
 वह गत हुआ है अब यहाँ से श्रेष्ठ स्वर्गागार में ।
 हे प्राण ! फिर अब किस लिए ठहरे हुए हो तुम अहो !
 सुख छोड़ रहना चाहता है कौन जन दुख में कहो ?
 अपराध सा सौ सर्वदा जिसके क्षमा करते रहे ,
 हँसकर सदा सस्नेह जिसके हृदय को हरते रहे ,
 हा ! आज उस मुक्त किकरी को कौन-से अपराध में—
 हे नाथ ! तजते हो यहाँ तुम शोक-सिन्धु अगाध में ?
 तज दो भले ही तुम मुझे, मैं तज नहीं सकती तुम्हें ,
 वह थल कहाँ पर है जहाँ मैं भज नहीं सकती तुम्हें ?

है विदित मुझको वन्हि-पथ^१ त्रैलोक्य में तुम हो कहीं ,
हम नारियो को पति-बिना गति दूसरी होती नहीं ॥
जो 'सहचरी' का पद मुझे तुमने दया कर था दिया ,
वह था तुम्हारा इसलिए प्राणेश ! तुमने ले लिया ;
पर जो तुम्हारी 'अनुचरी' का पुण्य-पद मुझको मिला ,
है दूर हरना तो उसे, सकता नही कोई हिला ॥
क्या बोलने के योग्य भी अब मैं नहीं लेखी गई ?
ऐसी न पहले तो कभी प्रतिकूलता देखी गई ।
वे प्रणय सम्बन्धी तुम्हारे प्रण अनेक नये नये ,
हे प्राणवल्लभ ! आज हा सहसा समस्त कहाँ गये ?
है याद ? उस दिन जो गिरा तुमने कही थी अधुमयी ,
जब नेत्र कौतुक से तुम्हारे मूँद कर मैं रह गई ।
'यह पाणि-पद्म स्पर्श मुझसे छिप नहीं सकता कही' ,
फिर इस समय क्या नाथ मेरे हाथ वे ही हैं नहीं ।
एकान्त में हँसते हुए सुन्दर रदो^२ की पांति से ,
धर चिबुक^३ मम रुचि पूछते थे नित्य तुम बहु भाँति से ॥
वह छवि तुम्हारी उस समय की याद आते ही वही ,
हे आर्घ्यपुत्र ! विदीर्ण होता चित्त जानें क्यों नहीं ॥
परिणय-समय मण्डप-तले सम्बन्ध-दृढ़ता-हित अहा !
ध्रुव देखने को वचन मुझसे नाथ ! तुमने था कहा ।

१ अग्निमार्ग । २ रद = दाँत । ३ ठोड़ी ।

पर विपुल ब्रीड़ा१-वश न उसका देखना मैं कह सकी ,
 संगति हमारी क्या इसीसे ध्रुव न हा ! हा ! रह सकी ?
 बहु भाँति सुन कर सु-प्रशंसा और उसमें मन दिये—
 सुरपुर गये हों नाथ ! क्या तुम अप्सराओं के लिए ?
 पर जान पड़ती है मुझे यह बात मन में भ्रम-भरी ,
 मेरे खमान न मानते थे तुम किसीको सुन्दरी ॥
 हों अप्सराएँ आप तुम पर मर रहीं होंगी वहाँ ,
 समता तुम्हारे रूप की त्रैलोक्य में रक्खी कहों ?
 पर प्राप्ति भी उनकी वहाँ भाती नहीं होगी तुम्हें ?
 क्या याद हम सबकी वहाँ आती नहीं होगी तुम्हें ?
 'है यह भुवन ही इन्द्र-कानन कमवीरों के लिए' ,
 कहते सदा तुम तो यही थे— 'धन्य हूँ मैं हे प्रिये !
 यह देव दुर्लभ, प्रेममय मुझको मिला प्रियवर्ग है ,
 मेरे लिए संसार ही नन्दन-विपिन है, स्वर्ग है ,
 जो भूरि-भाग भरी विदित थी निरुपमेय सुहागिनी ,
 हे हृदयवल्लभ ! हूँ वही अब मैं सहा हतभागिनी !
 जो साथिनी होकर तुम्हारी थी अतीव सनाथिनी ,
 है अब उसी मुझ-सी जगत में और कौन अनाथिनी ?
 हा ! जब कभी अवलोक कुछ भी मौन धारे मान से ,
 प्रियतम ! मनाते थे जिसे तुम विविध वाक्य-विधान से ।

विह्वल उसी मुझको अहो ! अब देखते तक हो नहीं !
 चाँ सर्वदा ही भूल जाना है सुना न गया कहीं ॥
 मैं हूँ वही जिसका हुआ था ग्रंथि-बन्धन साथ में ,
 मैं हूँ वही जिसका लिया था हाथ अपने हाथ में ;
 मैं हूँ वहा जिसको किया था विधि-विहित अर्द्धाङ्गिनी ,
 भूला न मुझको नाथ, हूँ मैं अनुचरी चिरसङ्गिनी ॥
 जो अङ्गरागाङ्कित-रुचिर-सित-सेज पर थी सोहती ,
 शोभा अपार निहार जिसको मैं मुदित हो मोहती ,
 तब मूर्ति क्षत-विक्षत वही निष्चेष्ट अब भू पर पड़ी !
 चठी तथा मैं देखती हूँ, हाय री छाती कड़ी !
 हे जीवतेश ! उठो, उठो, यह नीद कैसी घोर है ,
 है क्या तुम्हारे योग्य, यह तो भूमि-सेज कठोर है !
 रख शीश मेरे अङ्ग मे जो लेटते थे प्रीति से ,
 यह लेटना अति भिन्न है उस लेटने की रीति से ॥
 कितनी बिनय मैं कर रही हूँ क्लेश से रोते हुए ,
 सुनते नहीं हो किन्तु तुम बेसुध पड़े सोते हुए ।
 अप्रिय न मन से भी कभी मैंने तुम्हारा है किया ,
 हृदयेश ! फिर इस भाँति क्यों निज हृदय निर्दय कर लिया ?
 होकर रहूँ किसकी अहो ! अब कौन मेरा है यहाँ ?
 कह दो तुम्हीं बस न्याय से अब ठौर है मुझको कहाँ ?
 माता-पिता आदिक भले ही और निज जन हों सभी ,
 पति के बिना पत्नी सनाथा हो नहीं सकती कभी ॥

रोका बहुत था हाय । मैंने 'जाइए मत युद्ध मे' ,
 माना न तुमने किन्तु कुछ भी निज विपक्ष-विरुद्ध में ।
 है देखते यद्यपि जगत में दांप अर्थी जन नहीं ,
 पर वीर जन निज नियम से विचलित नहीं होते कही ।
 किसका करूँगी गर्व अब मैं भाग्य के विस्तार से ?
 किसका रिझाऊँगी अहो ! अब नित्य नव शृङ्गार से ?
 ज्ञाता यहाँ अब कोन है मेरे हृदय के हाल का ?
 सिन्दूर-विन्दु कहाँ चला हा ! आज मेरे भाल का ?
 हा । नेत्र-युत भी अन्ध हूँ, वैभव सहित भी दीन हूँ ,
 वाणी-विहित भी भूक हूँ, पद-युक्त भी गति हीन हूँ ।
 हे नाथ घोर विडम्बना है आज मेरी चातुरी ,
 जीती हुई भी तुम विना मैं हूँ मरी से भी बुरी ॥
 जो शरण अशरण के सदा अवलम्ब जो गतिहीन के ,
 जो सुख दुखीजन के, तथा जो बन्धु दुर्विद्य दीन के ,
 चिरशान्तिदायक देव हे यम । आज तुम ही हो कहाँ ?
 लगे न क्या हा हन्त ! तुम भी सुध स्वयं मेरी यहाँ ?
 कहती हुई बहु भाँति यों ही भारती ? करुणामयी ,
 फिर भी हुई मूर्च्छित अहो वह दुःखिनी विधवा नई ।
 कुछ देर को फिर शोक उसका सोगया मानों वहाँ ,
 हतचेत होना भी विपद मे लाभदायी है महा ॥

उस समय ही कृष्णा, सुभद्रा आदि पाण्डव-नारियों ,
मानो असुर-गण-पीडिता सुरलोक की सुकुमारियों ।
करती हुईं बहु भोति क्रन्दन आगईं सहसा वहाँ ,
प्रत्यक्ष ही लक्षित हुआ तब दुःख दुस्सह-सा वहाँ ॥
विचलित न देखा था कभी जिनको किसी ने लोक में ,

वे नृप युधिष्ठिर भी स्वयं रोने लगे इस शोक में ।

गाते हुए अभिमन्यु के गुण भाइयों के संग में ,

होने लगे वे मग्न-से आपत्ति-सिन्धु-तरङ्ग में ॥

“इस अति विनश्वर-विश्व में दुख-शोक कहते हैं किसे ?

दुख भोगकर भी बहुत हमने आज जाना है इसे ।

निश्चय हमें जीवन हमारा आज भारी हो गया .

संसार का सब सुख हमारा आज सहसा खो गया ॥

हा ! क्या करे ? कैसे रहें ? अब तो रहा जाता नहीं ,

हा ! क्या कहे ? किससे कहें ? कुछ भी कहा जाता नहीं ।

क्यों कर सहे इस शोक को ? यह तो सहा जाता नहीं ;

हे देव इस दुख-सिन्धु में अब तो बहा जाता नहीं ॥

जिस राज्य के हित शत्रुओं से युद्ध है यह हो रहा ,

उस राज्य को अब इस भुवन में कौन भोगेगा अहा ?

हे वत्सवर अभिमन्यु ! वह तो था तुम्हारे ही लिए ,

पर हाय ! उसकी प्राप्ति के ही समय में तुम चल दिये !

जितना हमारे चित्त को आनन्द था तुमने दिया ,

हा ! अधिक उससे भी उसे अब शोक से व्याकुल किया ।

हे वत्स, बोलो तो जरा, सम्बन्ध तोड़ कहाँ चले ?
 इस शोचनीय प्रसङ्ग में तुम खंग छोड़ कहाँ चले ?
 सुकुमार तुमको जानकर भी युद्ध में जाने दिया ,
 फल योग्य ही हे पुत्र । उसका शीघ्र हमने पा लिया ॥
 परिणाम को सोचे बिना जो लोग करते काम हैं ;
 वे दुःख में पड़ कर कभी पाते नहीं विश्राम हैं ॥
 तुमको बिना देखे अहो ! अब धैर्य हम कैसे धरें ?
 कुछ जान पड़ता है नहीं हे वत्स ! अब हम क्या करें !
 है विरह यह दुस्सह तुम्हारा हम इसे कैसे सहें ?
 अर्जुन, सुभद्रा, द्रौपदी से हाय ! अब हम क्या करें ।”
 है ध्यान भी जिनका भयङ्कर, जो न जा सकते कहे ,
 यद्यपि दृढ़-व्रत पाण्डवों ने थे अनेकों दुख सहे ,
 पर हो गये वे हीन-से इस दुःख के सम्मुख सभी ,
 अनुभव बिना जानी न जाती बात कोई भी कभी ॥
 यो जान व्याकुल पाण्डवों को व्यास मुनि आये वहाँ—
 कहने लगे इस भाँति उनसे वचन मनभाये वहाँ—
 “हे धर्मराज ! अधीर मत हो, योग्य यह तुमको नहीं ,
 करते भला क्या विधि-नियम पर जोह ज्ञानीजन कहीं ?”
 यो वादरायण के वचन सुन, देख कर उनको तथा ,
 कहने लगे उनसे युधिष्ठिर और भी पाकर व्यथा—
 “धीरज धरूँ हे तात कैसे ? जल रहा मेरा हिया ,
 क्या हो गया यह हाय ! सहसा दैव ने यह क्या किया ।

जो सर्वदा ही शून्य लगती आज हम सबको धरा ,
जो नाध-हीन अनाथ जग में हो गई है उत्तरा ,
हूँ हेतु इसका मुख्य मैं ही, हा ! मुझे धिक्कार है ,
मत धर्मराज, कहो मुझे, यह क्रूर-जन भू-भार है ॥
हैं पुत्र दुर्लभ सर्वथा अभिमन्यु-सा संसार में ,
थे सर्व गुण उस धर्मधारी धीर वीर कुमार में ।
वह बाल होकर भी मृदुल, अति प्रौढ़ था निज काम में ,
वाते अलौकिक थी सभी उस दिव्य शोभा-धाम में ॥
क्या रूप में, क्या शक्ति में, क्या बुद्धि में, क्या ज्ञान में ;
गुणवान वैसा अन्य जन आता नहीं है ध्यान में ।
पर हाय केवल रह गई है अब यहाँ उसकी कथा ,
धिक्कार है संसार की निस्तारता को सर्वथा ॥
प्रति दिवस जो इस समय आकर मोदयुत संग्राम से ,
करता हृदय मेरा मुदित था भक्ति-युक्त प्रणाम से ।
हा ! आज वह अभिमन्यु मेरा मृतक भू पर है पड़ा ,
दोगा कहां मेरे लिए क्या कष्ट अब इससे बड़ा ?
करने पड़ेगे यदपि अब भी काम सब जग में हमें ,
चलना पड़ेगा यदपि अब भी विश्व के मग मे हमें ,
रुच जानिये पर अब न होगा हृदय लीन उमङ्ग में ,
सुख की सभी वाते गई सौभद्र के ही खङ्ग मे ॥
उसके बिना अब तो हमें कुछ भी सुहाता है नहीं ,
हा ! क्या करें हत हृदय दुख से शान्ति पाता है नही ।

था लोक आलोकित उसी से, अब अँधेरा है हमें ,
 किस्म दोष से दुर्देव ने इस भाँति घेरा है हमें ॥
 अब भी मनोरम मूर्ति उसकी फिर रही है सामने ,
 पर साथ ही दुख की घटा भी घिर रही है सामने ,
 हम देखते हैं प्रकट उसको किन्तु पाते हैं नहीं ,
 हा । स्वप्न के वैभव किसी के काम आते हैं नहीं ॥
 कैसी हुई होगी अहो ! उसकी दशा उस काल में—
 जब वह फँसा होगा अकेला शत्रुओं के जाल में ?
 बस वचन ये उसने कहे थे अन्त में दुख से भरे—
 'निरुपाय तव अभिमन्यु यह अन्याय से मरता हरे !'
 कहकर वचन कौन्तेय यों फिर मौन दुख से हो गये ,
 दृग-नीर से तत्काल युग्म कपोल उनके धो गये ।
 तब व्यास मुनि ने फिर उन्हें धीरज बँधाया युक्ति से ,
 आख्यान समयोचित सुनाये विविध उत्तम उक्ति से ।
 उस समय ही संसप्तकों को युद्ध में संहार के ,
 लोटे धनञ्जय १ विजय का आनन्द उर में धार के ।
 होने लगे पर मार्ग में अपशकुन बहु विध जब उन्हें ,
 खलने लगी अति चित्त में चिन्ता कुशल की तब उन्हें ।
 कुविचार वारंवार उनके चित्त में आने लगे ,
 आनन्द और प्रसन्नता के भाव सब जाने लगे ।

तब व्यग्र होकर वचन वे कहने लगे भगवान से ,
 होगी न आतुरता किसे आपत्ति के अनुमान से ?
 “हे मित्र ! मेरा मन न जानें हो रहा क्यों व्यस्त है ,
 इस समय पल पल मे मुझे अपशकुन करता त्रस्त है ।
 तुम धर्मराज-समीप रथ को शीघ्रता से ले चलो ,
 भगवान ! मेरे शत्रुओं की सब दुराशाएँ दलों ॥”
 बहु भौंति तब सर्वज्ञ हरि ने शीघ्र समझाया उन्हें ,
 सुनकर मधुर उनके वचन सन्तोष कुछ आया उन्हें ।
 पर, स्वजन-चिन्ता-रज्जु-बन्धन है कदापि न टूटता ,
 जो आव जन जाता हृदय मे वह न सहसा छूटता ॥
 करते हुए निज चित्त मे नाना विचार नये नये ,
 निज भाइयों के पास आतुर आर्त्त अर्जुन आगये ।
 तप तप्त तडुओं के सदृश तब देख कर तापित उन्हें ,
 व्याकुल हुए वे और भी कर कुशल विज्ञापित उन्हें ।
 अवलोकते ही हरि-सहित अपने समक्ष उन्हें खड़े ;
 फिर धर्मराज विषाद से विचलित उसी क्षण हो पड़े ।
 वे यत्न से रोके हुए शोकाश्रु फिर गिरने लगे ,
 फिर दुःख कं वे दृश्य उनकी दृष्टि मे फिरने लगे ॥
 करते हुए कारुण्य-वाणी दीन हां उस काल मे ,
 देवें गये इस भौंति वे जलते हुए दुख-ज्वाल मे ।
 व्याकुल हुए खग-वृन्द के चीत्कार से पूरित सभी—
 दावाग्नि-कवलित वृक्ष ज्यों देता दिखाई है कभी ॥

“हे हे जनार्दन ! आपने यह क्या दिखाया है हमें ?
 हे देव ! किस दुर्भाग्य से यह दुःख आया है हमें ?
 हा ! आपके रहते हुए भी आज यह क्या होगया ?
 क्षभिमन्यु रूपी रत्न जो सहसा हमारा खो गया ॥
 निज राज्य लेने से हमें हे तात ! अब क्या काम है ?
 होता अहो ! फिर व्यर्थ ही क्यों यह मन्त्रासंग्राम है ?
 क्या यह हमारी हानि भारी, राज्य से मिट जायगी ?
 त्रैलोक्य की भी सम्पदा उस रत्न को क्या पायगी ?
 मेरे लिए ही भेद करके व्यूह द्रोणाचार्य्य का ।
 मारे सहस्रों शूर उसने ध्यान धर प्रिय कार्य्य का ।
 पर अन्त में अन्याय से निरुपाय होकर के वहाँ—
 हा ! हन्त ! वह हत हो गया, पाऊँ उसे अब मैं कहीं ?
 उद्योग हम सबने बहुत उसके वचने का किया ,
 पर खल जयद्रथ ने हमें भीतर नहीं जाने दिया ।
 रहते हुए भी सो हमारे युद्ध में वह हत हुआ ,
 अब क्या रहा सर्वस्व ही हा ! हा ! हमारा गत हुआ ।
 पापी जयद्रथ पार उससे जब न रण मे पा सका ,
 उस वीर के जीते हुए सम्मुख न जब वह जा सका ,
 तब मृतक उसको देख सिर पर पैर रक्खा नीच ने ,
 हा ! हा ! न यों मनुजत्व को भी स्मरण रक्खा नीच ने ॥”
 श्री ऋषण से जब ज्येष्ठ पाण्डव थे वचन यो कह रहे ,
 अर्जुन हृदय पर हाथ रक्खे थे महा दुख सह रहे ।

‘हा पुत्र !’ कह कर शीघ्र ही फिर वे मही पर गिर पड़े ,
 क्या वज्र गिरने पर बड़े भी वृक्ष रह सकते खड़े ?
 जो शस्त्र शत शत शत्रुओ के सहन करते थे कड़े ,
 वे पार्थ ही इस श.क के आघात से जब गिर पड़े ;
 तब और साधारण जनो के दुःख की है क्या कथा ,
 होती अतीव अपार है सुत-शोक की दुःसह व्यथा ॥
 यो देख भक्तों को प्रपीड़ित शोक के अति भार से ,
 कुञ्ज द्रवित अच्युत भी हुए कारुण्य के संचार से ।
 तल-मध्य-अनल-स्फाट से भूकम्प होता है जहाँ ,
 होते विकम्पित-से नही क्या अचल भूधर भी वहाँ ?

— — —

तृतीय सर्ग

श्री वत्सलाञ्जन विष्णु तब कह कर वचन प्रत्राश-पगे ,
धीरज बँधाकर पाण्डवो को शीघ्र समझाने लगे ।
हरने लगे सब शोक उनका ज्ञान के आलोक में ,
कुछ शान्ति देती है वडों की सान्त्वना ही शोक में ॥
“हे हे परन्तप ! ताप सह कर चित्त में धीरज धरो ,
हे धीर भारत ! हो न आरत ! शोक को कुछ कम करो ।
पड़ता समय है वीर पर ही, भीरु-कायर पर नहीं ,
दृढ़-भाव अपना विषद में भी भूलते बुधवर नहीं ॥
निज जन-विरह के शोक का दुख-दाह कौन न जानता ?
पर मृत्यु का होना न जग में कौन निश्चित मानता ?
सहनी नहीं पड़तो किने प्रिय-विरह की दुस्सह-व्यथा ?
क्या फिर हमें कहनी पड़ेगी आज गीता की कथा ?
आते बुरे दिन बोलने पर मनुज के जग में जहाँ ,
जाते हुए कोई न कोई दुःख दे जाते वहाँ ।

अतएव अब निश्चय तुम्हारे उदय का आरम्भ है ,
 होगा अधिक अब दुःख क्या ? यह सब दुखों का खम्भ है ।
 जिस ज्ञान के बल से अनेको विपद्-नद तरते रहे ,
 जिस ज्ञान के बल से सदा ही धैर्य तुम धरते रहे ,
 हे बुद्धिमानों के शिरोमणि ! ज्ञान अब वह है कहाँ ?
 अबलम्ब उसका ही तुम्हें लेना उचित है फिर यहाँ ॥
 निश्चय विरह अग्निन्यु का है दुःखदाई सर्वथा ,
 पर सहन करनी चाहिए फिर भी किसी विध यह व्यथा ॥
 रण मे मरण क्षत्रिय जनो को स्वर्ग देता है सदा ,
 है कान ऐसा विश्व में जीता रहे जो सर्वदा ?
 हे वीर, देखो तो, तुम्हें यो देखकर रोते हुए ,
 हे दुःख रहे सब शत्रुजन मन मे मुदित होते हुए ।
 क्या इत नहा अपमान का कुछ भी न तुमको ध्यान है ?
 क्या जानियो को भी विपद् में त्याग देता ज्ञान है ?
 तुम कौन हो, क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारा कर्म है ?
 कैसा समय, कैसी दशा, कैसा तुम्हारा धर्म है ?
 हे अनप ! क्या वह वितता भी आज तुमने दूर की ?
 होती परीक्षा ताप में ही स्वर्ण के सम शू की ।
 जिस बात से निज वैरियो को स्वल्प-सा भी हर्ष हो ,
 है योग्य उसका त्याग ही बाधा न क्यो दुर्द्धर्ष हो ।
 वह वीर ही क्या, शत्रु का सुख-हेतु हो जो आप ही ,
 निज शत्रुओ का तो बढ़ाना चाहिए सन्ताप ही ।

जिन पापरो ने सबदा ही दुःख तुमको ही दिया ,
 पडयन्त्र रच रच कर अनेको विभव सारा हर लिया ,
 उन पापियो को देखते है योग्य क्या रोना तुम्हें ?
 निज शत्रु-सम्मुख तो उचित है मुदित ही होना तुम्हें ॥
 निज सहचरो का शोक तो आजन्म रहता है बना ,
 पर चाहिए सबको सदा कर्तव्य अपना पालना ।
 हे विद्व । सो सब सोचकर यो शोक मे न रहो पड़े ,
 लो शीघ्र बदला वैरियों से, धैर्य धर कर हो खड़े ॥
 मारा जिन्होने युद्ध में अभिमन्यु को अन्याय से ,
 सर्वस्व मानों है हमारा हर लिया दुरुपाय से ।
 हे वीरवर ! इस पाप का फल क्या उन्हें दोगे नही ?
 इस वैर का बदला कहा, क्या शीघ्र तुम लोगे नही ?”
 श्रीकृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे ,
 सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे ।
 “संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े ,”
 करते हुए यह घोषणा वे हो गये उठ कर खड़े ॥
 उस काल मारे क्रोध के तनु कोंपने उनका लगा ;
 मानो हवा के जोर से सौता हुआ सागर जगा ।
 मुख बाल-रवि-सम लाल होकर ज्वाल-सा बोधित हुआ ,
 प्रलयार्थ उनके मिस वहाँ क्या काल ही क्रोधित हुआ ?
 युग-नेत्र उनके जो अभी थे पूर्ण जल की धार से ,
 अब रोप के मारे हुए वे दहकते अङ्गार-से ।

निश्चय अरुणिमा-मिस अनल की जल उठी वह ज्वाल ही ,
 तब तो दृगों का जल गया शोकाश्रुजल तत्काल ही ॥
 तब निकल कर नासा-पुटों से व्यक्त करके रोष त्यो ,
 करने लगा निश्वास उनका भूरि भीषण घोष यो—
 जिस भौंति हरने पर किसी के, प्राण से भी प्रिय मणी ,
 करके स्फुरित फिर फिर फणा फुङ्कार भरता है फणी १ ॥
 करतल परस्पर शोक से उनके स्वयं घषित हुए ,
 तब विस्फुरित होते हुए भुजदण्ड यो दर्शित हुए—
 दो पद्म शुण्डो में लिये दो शुण्डवाला गज कहीं ,
 मर्दन करे उनको परस्पर तो मिले उपमा वहीं !
 दुर्द्धर्ष, जलते-से हुए, उत्ताप के उत्कर्ष से ,
 कहने लगे तब वे अरिन्दम, वचन व्यक्त अमर्ष से ।
 प्रत्येक पल मे चञ्चला की दीप्ति दसका कर घनी ,
 गरभीर सागर सस यथा करते जलद धीरध्वनी ॥
 “साक्षी रहे संस्कार, करता हूँ प्रतिज्ञा पार्थ मै ,
 पूरा करूँगा कार्य सब कथनानुसार यथार्थ मै ॥
 जो एक पालक को कपट से मार हँसते है अभी ,
 वे शत्रु सत्वर शोक-सागर-सन्न दीखेगे सभी ॥
 अभिसन्धु-धन के निधन में कारण हुआ जो मूल है ,
 इससे हमारे हत-हृदय को हो रहा जो शूल है,—

उस खल जयद्रथ को जगत में मृत्यु ही अब सार है ,
 उन्मुक्त बस उसके लिए गीरव नरक का द्वार है ॥
 तज धार्तराष्ट्रों को खवेरे दीन होकर जो कहीं ,
 श्रीकृष्ण और अजातकिपु के शरण वह होगा नहीं ;
 तो काल भी चाहे स्वयं हो जाय उसके पक्ष में ,
 तो भी उसे मैं वध करूँगा प्राप्त कर शर-लक्ष में ॥
 गुर, नर, असुर, गन्धर्व, किन्नर आदि कोई भी कहीं ,
 कल शाम तक मुझसे जयद्रथ को बचा सकते नहीं ।
 चाहे चराचर विश्व भी उसके कुशल-हित हो खड़ा ,
 भू-लुठित कलरव-तुल्य उसका शीश लोटेगा पड़ा ।
 उपयुक्त उस खल को न यद्यपि मृत्यु का भी दण्ड है ,
 पर मृत्यु से बढ़ कर न जग में दण्ड और प्रचण्ड है ।
 अतएव कल उस नीच को रण-मध्य जो मारूँ न मैं ,
 तो सत्य कहता हूँ कभी शस्त्रास्त्र फिर धारूँ न मैं ॥
 हे देव अच्युत, आपके सम्मुख प्रतिज्ञा है यही ,
 मैं कल जयद्रथ-वध करूँगा, वचन कहता हूँ सही ।
 यदि मारकर कल मैं उसे यमलोक पहुँचाऊँ नहीं ,
 तो पुण्य-गति को मैं कभी परलोक में पाऊँ नहीं ॥
 पापी जयद्रथ ! हो चुका तेरा वयोविस्तार है ,
 मेरे करो से अब नहीं तेरा कहीं निस्तार है ।

दुर्वृत्त ! तेरा त्राण कोई कर नहीं सकता कहीं ,
 वीर-प्रतिज्ञा विश्व में होती असत्य कभी नहीं ॥
 विषधर बनेगा रोष मेरा खल ! तुझे पाताल में ,
 दावाग्नि हागा विपिन में, बाड़व जलधि-जल-जाल में ।
 जो व्योम में तू जायगा तो वज्र वह बन जायगा ,
 चाहे जहाँ जाकर रहे जीवित न तू रह पायगा ॥
 छोटे बड़े जितने जगत मे पुण्य-नाशक पाप हैं ,
 लौकिक तथा जो पारलौकिक तीक्ष्णतर सन्ताप है ।
 हो प्राप्त वे सब सर्वदा को तो विरुम्ब विना मुझे ,
 कल युद्ध मे सन्ध्या समय तक, जो न मैं मारूँ तुझे ॥
 अथवा अधिक कहना वृथा है, पार्थ का प्रण है यही ,
 साक्षी रहे सुन ये वचन रवि, शशि, अनल, अम्बर, मही ,
 सूर्यारत से पहले न जो मैं कल जयद्रथ-वध करूँ ,
 तो शपद करता हूँ स्वयं मैं ही अनल में जल मरूँ ॥”
 करके प्रतिज्ञा यां किरोटी क्रोध के उद्गार से ,
 करने लगे घांषित दिशाएँ धनुष की टङ्कार से ।
 उस समय उनकी दीप्ति ने वह दृश्य याद करा दिया ,
 जब शाङ्गपाणि उपेन्द्र ने था रोष असुरों पर किया ॥
 सुन पार्थ का प्रण रौद्र रस मे वीर सब बहने लगे ;
 कह ‘साधु-साधु’ प्रसन्न हो श्रीकृष्ण फिर कहने लगे—
 “यह भारती हे वीर भारत ! योग्य ही तुमने कही ,
 निज वैरियों के विषय में कर्त्तव्य है समुचित यही ॥”

इसके अनन्तर मुदित माधव कम्बु-रव^१ करने लगे ,
 प्रण के विषय में पाण्डवों का शाच-सा हरने लगे ।
 प्रिय पाञ्चजन्य करस्थ हो मुख-लग्न यों शांभित हुआ ,
 कल-हंस मानों कञ्ज-वन मे आ गया लोभित हुआ ॥
 फिर भीम-अर्जुन आदि भी निज शङ्ख-रव करने लगे ,
 पीछे उन्हीं के सैन्य में रण-वाद्य मन हरने लगे ,
 तब गूँज कर वह घोर-रव सब ओर यों भरने लगा ,
 मानों चराचर विश्व को ही नादमय करने लगा ॥
 करके श्रवण उस नाद को कौरव बहुत शङ्कित हुए ,
 नाना नवीन विचार उनके चित्त में अङ्कित हुए ।
 पार्थ-प्रतिज्ञा भी उन्होंने दूत के द्वारा सुनी ,
 ज्यों दैत्य-गण ने जिष्णुजय^२ जीमूत^३ के द्वारा सुना ॥
 प्रीष्टमान्त में घन-नाद सुनकर भीत होता हंस ज्यों ,
 व्याकुल हुआ यह बात सुनकर सिन्धुराज नृशंस त्यो ।
 प्रत्यक्ष-सा निज रूप उसको मृत्यु दिखलाने लगी ,
 दावाग्नि-सी बढ़ती हुई वह निकटतर आने लगी ॥
 कर्त्तव्य-मूढ़ समान वह चिन्ताग्नि में जलने लगा ,
 निज कृत्य वारम्बार उसको चित्त में खलने लगा ।
 देखा न और पदार्थ कोई प्राण से प्यारा कहीं ,
 है वस्तु अप्रिय अन्य जग में मृत्यु से बढ़कर नहीं ॥

१ शङ्ख का शब्द । २ जिष्णु = इन्द्र ३ जीमूत = मेघ ।

संसार मे आशा उसे कुछ भी न जीवन की रही ,
 बस दोखने उसको लगी निज मृत्युमय सारी मही ।
 तब वह सुयोधन के निकट आया फँसा भय-जाल में ,
 गति है न अन्य सुहृज्जनों से भिन्न आपतकाल मे ॥
 कारण समझ कर भी उसे व्याकुल विलोका जब वहाँ ,
 पूछा सुयोधन ने स्वयं भय-हेतु उससे तब वहाँ ,
 होकर चकित-सा थकित-सा सर्वस्व से जाकर ठगा ,
 भय से विकृत अप्रकृत स्वर से वचन वह कहने लगा—
 “जो प्रण किया पार्थ ने सुत-शोक के सन्ताप से ,
 हे कुरुकुलोत्तम ! क्या अभी तक वह छिपा है आपसे ?
 ‘मारूँ जयद्रथ को न कल मै तो अनल में जल मरूँ ,’
 की है यही उसने प्रतिज्ञा, अब कहां मैं क्या करूँ ?
 कर्त्तव्य अपना इस समय होता न मुझको ज्ञात है ,
 भय और चिन्ता-युक्त मेरा जल रहा खब गात है ।
 अतएव मुझको अभय देकर आप रक्षित कीजिए ,
 या पार्थ-प्रण करने विफल अन्यत्र जाने दीजिए ॥
 मै खत्य कहता हूँ, नहीं है मृत्यु की शङ्का मुझे ;
 खब दीप्त जीवन-दीप बुझते है, बुझेंगे, हैं बुझे ।
 है किन्तु मुझको चित्त मे चिन्ताप्र बल केवल यही ,
 अब देख पाऊँगा तुम्हारी मै न निष्कण्टक मही ॥”
 इस भौंति उसके सुन वचन कुरुराज बोला प्रेम से ;—
 “हे वीर ! तुम निर्भय तथा निःशङ्क सोओ क्षेम से ।

जब तक हमारे पक्ष का जन एक भी जीवन धरे ,
 है कौन ऐसा जो तुम्हारा बाल भी काँका करे ?
 यह प्रण हमारे भाग्य से ही है धनञ्जय ने किया ,
 होगी महज ही में हमारी अब सफल सारी क्रिया ।
 कर्णादि के रहते हुए क्या वह सफलता पायगा ?
 कल शाम को जल कर अनल में वह स्वयं मर जायगा
 अर्जुन विना जीवित रहेंगे धर्मराज नहीं कभी ,
 सो यो स्वयं ही रिपु हमारे नष्ट अब होंगे सभी ।
 कृप, कर्ण, द्रोणाचार्य जिसके त्राण के हित हो खड़े ,
 बस जानलो सब शत्रु उसके मृत्यु के मुख में पड़े ॥
 अन्यत्र जाने की अपेक्षा योग्य है रहना यहीं ,
 रक्षा तुम्हारी विश्व में अन्यत्र सम्भव है नहीं ।
 क्या द्रोण, कर्ण, कृपादि से बलवान है कोई कहीं ?
 रक्षक जहाँ आत्मीय जन हो योग्य है रहना वही ॥”
 कह कर वचन कुरुराज ने यो जब उसे धीरज दिया ,
 हो स्वस्थ तब उसने नृपति का बहुत अभिनन्दन किया ।
 कर्णादि ने भी दूर की बहु भाँति उसकी यन्त्रणा ,
 करने लगे फिर अन्त में सब युद्ध-विषयक सन्त्रणा ॥



इस ओर देकर पाण्डवों को शान्तिदायी सान्त्वना ,
 सौभद्र-शव-संस्कार की श्रीकृष्ण ने की योजना ।
 कृष्णादि से वेष्टित उसे भगवान ने देखा तथा ,
 मुग्धी लताओं के निकट सूखा प्रसून पड़ा यथा ॥
 कृष्णा, सुभद्रा आदि को अवलोक कर गेते हुए ,
 हरि के हृदय मे भी वहाँ कुछ कुछ करुण रस-कण चुए ,
 आते हुए अवलोक उनको देह भान बिसार के ,
 बोली सुभद्रा—मृतकवत्सा गो-समान—पुकार के ॥
 “भैया, कहो मेरे दृगो का आज तारा है कहाँ ?
 मुक्त दुःखिनी हतभागिनी का सौख्य सारा है कहाँ ?
 सम्पूर्ण-गुण-सम्पन्न वह अनुचर तुम्हारा है कहाँ ?
 हा ! पाण्डुवंश-प्रदीप अब अभिमन्यु प्यारा है कहाँ ?
 भैया, तुम्हें क्या विश्व मे मुझको दिखाना था यहो ?
 हा ! जल गया यह हत हृदय, दृग-ज्योति सब जाती रही !
 तब काल-गति के साग मे अभिमन्यु हो या क्या अहो ?
 करुणानिधे, करुणा तुम्हारी हाय यह ! कैसी कहो ?”
 रोने लगी यो कह सुभद्रा, दुःख वेग न सह सकी ,
 पर रद्धकण्ठा द्रौपदी कुछ भी न उनसे कह सकी ,
 वस अश्रु-पूर्ण विलोचनों से देख कर हरि को वहाँ ,
 निर्जीव-सी वह रह गई वैठी जहाँ की ही तहाँ ॥
 मानो गिरा भी कह सकी पीड़ा न उसकी हार के ,
 वह दुःखिनी चुप रह गई हरि को समक्ष निहार के ।

पर अश्रुजल-अवरुद्ध उसकी दृष्टि ने मानों कहा—
 'अब और क्या इस दुःखिनी को देखना बाकी रहा !'
 यों जान कर सबको दुखी, लख उत्तग-उत्ताप को ,
 भूले रहे भगवान भी कुछ देर अपने आपको ।
 फिर रोक करुणा-वेग सबको शीघ्र समझाने लगे ,
 उस शोक सागर से उन्हें तट ओर ले जाने लगे ॥
 "धीरज धरो कृष्णे, अहो ! भद्रे सुभद्रे ! शान्त हो ;
 है गति यही तनुधारियों की शोक से मत भ्रान्त हो ।
 यह कौन फह सकता कि अब अभिमन्यु जीविन है नहीं ?
 जग में सदा को कीर्ति करना, है भला मरना कहीं ?
 जब तक प्रकाश समर्थ होगा अन्धकार-वनाश में ,
 जब तक उदित होते रहेंगे सूर्य-शशि आकाश में ,
 अभिमन्यु का विश्रुत रहेंगे नाम तब तक सब कही ,
 नश्वर जगत में जन्म लेकर वीर मरते ही नहीं ।
 आजन्म तप करके कठिन मुनि भी न जा सकते जहाँ ,
 संसार के बन्धन कभी कोई न आ सकते जहाँ ,
 अक्षय्य सब सुख हैं जहाँ—दुख एक भी होता नहीं ;
 सच मान कर मेरे वचन अभिमन्यु को जानो वहीं ॥
 वह वीर नश्वर देह तज कर आप तो है ही जिया ,
 पर सत्य समझो, है तुम्हें भी अमर उसने कर दिया ।
 ऐसे समर्थ सपूत का तुम शोक करती हो अहो !
 उसकी सहज की मृत्यु में गौरव कहाँ था यह कही ?"

कह कर वचन भगवान ने यों ज्ञान जब उनको दिया ,
कुछ शान्त जब हरि-सान्त्वना से होगया उनका हिया ।
तब युग दृगों से दुःखमय अविरल सलिल-धारा बहा ;
पाकर तनिक अवलम्ब-सा यो याज्ञसेनी ने कहा—

“धिकार है हे तात ! ऐसी अमरता परलोक मे ,
जीना किसे स्वीकार है आजन्म रहकर शोक में ?

पूरे हुए है क्या हमारे पूर्व-पाप नही अभी ?

हा ! वह हमारा पुत्र प्यारा फिर मिलेगा क्या कभी ?

अभिमन्यु को मृत देख कर भी हाय ! मैं जीती रही ,

हा ! क्यों न मुझ हतभागिनी के अर्थ फट जाती मही !

दुख भोगने ही के लिए क्या जन्म है मेरा हुआ ?

हा ! कब रहा जीवन न मेरा शोक से घेरा हुआ ?

मेरे हृदय के हर्ष हा ! अभिमन्यु, अब तू है कहाँ ?

दृग खोल कर वेटा, तनिक तो देख हम सब को यहाँ ।

मामा खड़े है पास तेरे, तू मही पर है पड़ा !

निज गुरुजनो के मान का तो ध्यान था तुझको बड़ा ॥

व्याकुल तनिक भी देख कर तू धैर्य देता था मुझे ,

पर आज मेरे पुत्र प्यारे, हो गया है क्या तुझे ?

पात्री ! सुभद्रा को समझकर माँ मुझे था मानता ,

पर आज तू ऐसा हुआ मानो न था पहचानता ।

हा ! पाँच प्राणों की बुरी बह सन्धि जब होने लगी ,
 सुन कर तथा उस बात को जब मैं बहुत रोने लगी ,
 क्या याद है ? था पाण्डवों के सामने तूने कहा—
 'स्वीकृत नहीं यह सन्धि मुझको, माँ ! न तू भाँसू बहा ॥'
 रहते हुए भी शस्त्रधारी पाण्डवों के साथ में ,
 हा ! तू अकेला हत हुआ, पड़ पापियों के हाथ में !
 कोई न कुछ भी कर सका ऐसा अनर्थ हुआ किया ,
 धिक् पाण्डवों की शूरता, धिक् शस्त्र धारण की क्रिया ॥"
 कहती हुई यों द्रौपदी का कण्ठ गद्गद् हो गया ,
 विष-वेग के खम शोक से चैतन्य उसका खोगया ।
 हरि ने सजग कर तब उसे व्यजनादि के उपचार से ,
 दी खान्त्वना समयोपयोगी ज्ञान के विस्तार से—
 "अभिमन्यु के दर्शन विना तुमको न रोना चाहिए ,
 उसकी परम पद प्राप्ति सुनकर शान्त होना चाहिए !
 ले जन्म क्षणभंगुर-जगत में कौन मरता है नहीं ?
 पर है उचित मरना जहाँ पर वीर मरते हैं वही ॥
 अभिमन्यु के घातक सभी अति शीघ्र मारे जायेंगे ,
 तुम स्वस्थ हो, इस पाप का वे दण्ड पूरा पायेंगे ।
 करते अभी तक पार्थ थे जो युद्ध करुणाधीन हो ,
 बन जायेंगे अब रुद्र रण में, रोष में अति लीन हो ॥
 होगा जयद्रथ कल निहत, प्रण कर चुके अजुन अभी ,
 धीरज धरा अतएव मन में शान्त होकर तुम सभी ।

दो धैर्य मेरी ओर से, सब उत्तरा के वित्त को ,
 सुत-रूप में वह पायगी खोये हुए निज वित्त^१ को ॥”
 श्रीकृष्ण ने इस भोति सबको लीन करके ज्ञान में ,
 प्रस्तुत कराई शीघ्र ही चन्दन-चिता सुस्थान में ।
 अभिमन्यु का मृत देह उस पर शान्ति से रक्खा गया ,
 ज्यो कूरता की गोद में कारुण्य का भाजन नया ॥
 होकर ज्वलित तत्क्षण चिता की ज्वाल ने नभ को छुआ ,
 पर उस वियोग-विपत्ति विधुरा उत्तरा का क्या हुआ ?
 उस दग्धहृदया को मरण भी होगया दुर्लभ बड़ा ,
 वह गर्भिणी थी, इसलिए निज तनु उसे रखना पड़ा ।
 अभिमन्यु का तन जल गया तत्काल ज्वाला-जाल से ,
 पर कीर्ति नष्ट न हो सकी उस वीरवर की काल से ,
 अन्दा-बुरा बस नाम ही रहता सदा इस लोक में ,
 दण्ड धन्य है जिसके लिए हो लीन सज्जन शोक में ॥



चतुर्थ सर्ग

इसके अनन्तर कृष्ण ने सबको बहुत धीरज दिया ,
 फिर आर्त अर्जुन को वहाँ इस भाँति उत्तेजित किया—
 “अत्यन्त रोषावेग में तुमने किया है प्रण कड़ा ,
 अब यत्न क्या इसका सखे ? यह कार्य है दुष्कर बड़ा ।”
 या सुन वचन गोविन्द के निर्भय धनञ्जय ने कहा ,—
 (वीरत्व-करुणा-शान्ति का त्रिस्रोत गङ्गाजल बहा ।)
 “निश्चय मरेगा कल जयद्रथ प्रात होगी जय मुझे ,
 हे देव ! मेरे यत्न तुम हो मत दिखाओ भय मुझे ॥”
 कहते हुए यों पार्थ के दो वूँद आँसू गिर पड़े ,
 मानो हुए दो सीपियों से व्यक्त दो मोती बड़े ।
 फिर मौन होकर निज शिविर में वे तुरन्त चले गये ,
 छलने चले थे भक्त को, भगवान आप छले गये ॥
 हर शोक पाण्डव-पक्ष का निज शिविर में हर भी गये ,
 फिर शीघ्र ही भगवान ने प्रकटित किये कौतुक नये ।
 कर योग माया को स्रजग निद्रित जगत् की व्याप्ति को ,
 भट लें चले वे पार्थ को शिव-निकट अस्त्र-प्राप्ति को ॥

लख प्राकृतिक छवि मार्ग में गिरि-वन-नदी-नभ की नई,
 विस्मित हुए अत्यन्त अर्जुन आत्म-विस्मृति हो गई ।
 उस काल उनका शोक भी चिन्ता सहित जाता रहा,
 हो प्रेम से पुलकित उन्होंने यों रमापति से कहा—
 “महिमा तुम्हारी दीखती सब ओर ही अद्भुत हरें ।
 कौशल तुम्हारे हैं सभी अत्यन्त अनुपमता भरे ।
 करती प्रकाशित नित्य नूतन छवि तुम्हारी सृष्टि है ।
 पड़ती जहाँ अड़ती वही, हटती नहीं फिर दृष्टि है ।
 आकाश में चलते हुए यो छवि दिखाई दे रही,
 मानो जगत को गोद लेकर मोद देती है मही ।
 उन्नत हिमाचल से धवल यह सुरसरी यो टूटती,
 मानो पयोधर से धरा के दुग्ध-धारा छूटती ॥
 निद्रित-दशा में सृष्टि सारी पा रही विश्राम है,
 निरतन्व निश्चल-प्रकृति की शोभा परम अभिराम है ।
 भूषण खट्वश उडुगण हुए, मुख-चन्द्र-शोभा छा रही,
 विमलाश्वरा १ रजनी-बधू अभिसारिका-सी जा रही ॥
 खग वृन्द सोता है अतः कलकल नहीं होता जहाँ,
 वस गन्द सासुत का गमन ही मौन है खोता जहाँ ।
 इस शीति धीरे से परस्पर वह सजगता की कथा,
 यो दीखते है वृक्ष ये हो विश्व के प्रहरी यथा ॥

१ निर्मल आकाशवाली और निर्मल वस्त्रवाली ।

कर पार गिरि-वन-नद यद्यपि कैलास को हम जा रहे ,
 पर दृश्य आगे के स्वयं मानों निकट सब आ रहे ।
 गोविन्द ! पीछे तो अहो ! देखो तनिक दृग फेर के ,
 तम कर रहा है लीन-सा क्रम से जगत को घेर के ॥
 मधु-गन्ध मणि-मय-मन्दिरों से फैलती सुन्दर जहाँ ,
 यह दीखती अलकापुरी; उपमा अहो ! इसकी कहाँ ?
 गाते प्रियाओं के खदित रस-राग यक्ष जहाँ तहाँ ,
 प्रत्यक्ष-सी उत्तर दिशा की दीखती लक्ष्मी कहाँ ।”
 कहते हुए यो पार्थ पर सहसा उदासी छा गई ,
 ‘उत्तर’ दिशा से ‘उत्तरा’ का याद उनको आगई ।
 हा ! निज जनो का शोक सबकां स्वप्न में भी सालता ,
 मृत-बन्धुओं का ध्यान ही मन कां विफल कर डालता ॥
 बोले वचन भगवान तब उनसे प्रचुर-प्रियता-पगे ,—
 “हे वीर (भारत ! व्यर्थ को फिर व्यग्र तुम होने लगे ।
 अब तक तुम्हारा शोक क्या यह पूर्ववत् अनिवार्य है ?
 दुर्बल बनाकर मोह मन को नष्ट करता कार्य्य है ।”
 श्रीकृष्ण के सुन वचन कुछ उत्तर न अर्जुन ने दिया ,
 अतएव उनके स्कन्ध पर हरि ने करारोपण किया ।
 तब पड़ गये अवसन्न वे वैचित्र्य की-सी वृष्टि में ,
 था यह नितान्त नवान जो कुछ दृश्य आया दृष्टि में ॥
 देखा उन्होंने तब कि मानों वे बहुत ऊपर गये ,
 रवि-चन्द्र लोकों के मिले बहु दिव्य दृश्य नये नये ।

चलते हुए यो अन्त से वैकुण्ठ दीख पड़ा उन्हें ,
 अवलोक उसकी छवि हुआ आश्चर्य-हर्ष बढ़ा उन्हें ।
 लज्जल मनोरम थी वहाँ की भूमि सारी स्वर्ण की ,
 थी जड़ रही जिसमे विपुल-मणियाँ अनेको वर्ण की ।
 प्रत्येक पथ के पार्श्व से फूले हुए बहु फूल थे .
 उड़ते हुए जिसके रजःकण दिव्य शोभा मूल थे ॥
 जिनके सुधामय विमल-जल कोमल-सुगन्धि-सने हुए ,
 कुण्डादि शलिलाशय रुचिर थे ठौर ठौर बने हुए ।
 जोड़े मिलिन्दों के मुदित जिनसे मनोज्ञ मिले हुए .
 नलिनी-नलिन आदिक जलज थे एक साथ खिले हुए ॥
 जिन पर कहीं मणि की शिलाएँ तृण-वितान कही कहीं ;
 छोटे दहे क्रीडाद्रि^१ थे शोभायमान कही कही ।
 थे नाचते केकीर कहीं; थे हंस-पुञ्ज कही कहीं .
 निर्भर कहीं थे भर रहे, थे रम्य कुञ्ज कही कहीं ॥
 सब लोग अजरामर वहाँ के रूपवान विशेष थे ,
 पलवान, शिष्ट-वारिष्ट, जिनके दृग खदा अन्निमेष थे ।
 सब अङ्ग सुगठित श्रेष्ठ सबके, स्वर्ण वर्ण अशेष थे ;
 वर्णन किये जाते नहीं, जैसे मनोहर वेष थे ॥
 हो देख कर लजित जिन्हें काश्मीर-कुंकुम-क्यारियों ,
 थी ठौर ठौर विहार करती सुन्दरी सुर नारियों ।

१ श्रीदा के पर्वत । २ मोर ।

जब के मुखों पर छा रही थी हर्ष की दिव्य-प्रभा ,
 मानो असंख्य सुधाकरों की थी वहाँ शोभित सभा ॥
 सुरगण कहीं वीणा बजा कर हरि-चरित थे गा रहे ,
 कोई कही थे आ रहे, कोई कहीं थे जा रहे ।
 सर्वत्र क्रीड़ाएँ रुचिर बहु भाँति की थीं हो रहीं ,
 थी भद्र-भावों की हुई पूरी पगकाष्ठा वही ॥
 दुख, शोक, आधिव्याधि. चिन्ता ये न कोई थीं वहाँ ;
 आनन्द, उत्तम, प्रेम के ही साज थे देखो जहाँ ।
 मद-मोह. राग-द्वेष के थे चिह्न भी मिलते नहीं ,
 सर्वत्र शान्ति, पवित्रता थी, पाप-ताप न थे कहीं ॥
 इस जन्म में वैकुण्ठ था देखा न अर्जुन ने कभी ,
 प्रच्छन्नः भित्ति, कपाट आदिक रत्न-विरचित थे सभी ।
 बहु वर्ण-किरणों का रुचिर आलोक अति उद्दण्ड था .
 देखा हुआ मार्तण्ड मानो एक उसका खण्ड था .
 जाती जहाँ तक दृष्टि थी मिलता न उसका छोर था ,
 मन्दार कलपादिक द्रुमों का दृश्य चारों ओर था ।
 अद्भुत अनेको रङ्ग के स्वच्छन्द खग थे गा रहे ,
 शीतल-सुगन्ध-समार के थे मन्द भोंके आ रहे ॥
 फिर आप से ही आप वे हरि-धाम में खिच-से गये ,
 देखा वहाँ का दृश्य जब युग नेत्र तब मिच-से गये ।

सिंहासनस्थ रमा सहित शोभित वहाँ भगवान् थे
घन-दामिनी जिनके उभय छाया-प्रकाश समान थे ।
थी चञ्चला १ अचला २ जहाँ, सर्वेश शोभित थे जहाँ,
वैभव वहाँ का-सा भला त्रैलोक्य में होगा कहाँ ?
अवलोक आभूषण-छटा होती अनल की भ्रान्ति थी,
करती अतिक्रम किन्तु उसको दिव्य उनकी कान्ति थी ॥
सानन्द सिंहासन निकट थी सिद्धियाँ सारी खड़ी,
थी व्यक्तरति, मति, धृति, क्षमादिक शान्तियुत प्यारी बड़ी ।
शिव, विधि, सुरप, रवि, शशि, यमादिक भक्ति से थे भर रहे,
करते हुए मुसकान हरि सब पर कृपा थे कर रहे ॥
इसके अनन्तर पार्थ ने परिपूर्ण प्रेम उमङ्ग मे,
आता हुआ अभिमन्यु देखा जय-विजय के सङ्ग में ।
अवलोक उसकी सुत्र उन्हे कुछ भी रही न शरीर की,
शोभा सहस्र गुनी प्रथम मे थी अधिक उस वीर की ॥
कर जोड़ कर अभिमन्यु ने प्रभु को प्रणाम किया वहाँ,
फिर सब सुरो को सिर झुका कर स्वस्तिवाद लिया वहाँ ।
सब देय उसके कर्म का सम्मान अति करने लगे,
उस दान्त माना पार्थ सुख के सिन्धु मे तरने लगे ॥
था जो अशेष-अभिष्ट-दायक, नित्य रहता था खिला,
चात्सल्य-युत अभिमन्यु का वह पद्मपद्मा ३ से मिला ।

तब दिव्य-दशनो से प्रभा की वृष्टि-मी करते हुए ,
बोले स्वयं भगवान यो सबके हृदय हरते हुए—

“सन्तुष्ट तूने है किया निज धर्मपालन से मुझे ,
सौभद्र ! निज सामीप्य में देता सदा को हूँ तुझे ।

पर और भी कुछ माँग तू, वर वृत्त तेरा गेय ? है ;
अपने जनों के अर्थ मुझको कौन वस्तु अदेय है ?”

अति मुग्ध होकर पार्थ ने तब मूँद आँखों को लिया ,
पर खोलने पर फिर न वैसा दृश्य दिखलाई दिया ।

सुस्मितवदन श्रीकृष्ण को ही सामने देखा खड़ा ,
चित्रस्थ-से वे रह गये करते हुए विस्मय बड़ा ॥

थी जिस समय उस दृश्य से सुध-बुध न अर्जुन को रही ,
राजा युधिष्ठिर आदि ने भी स्वप्न में देखा वही ।

उस लोक-नाटक-सूत्रधर का ठाठ अति अभिराम है ,
वह एक होकर भी सदा करता अनेकों काम है ॥

तत्काल अर्जुन से वचन कहने लगे भगवान यों—

“हे वीर, तुम निश्चेष्ट-मे क्या कर रहे हो ध्यान यों ?

अब भी तुम्हारा दुःखदायी मोह क्या छूटा नहीं ?

अब भी प्रबल परतन्त्रता का जाल क्या टूटा नहीं ?

अभिमन्यु-विषयक शोक जो अब भी तुम्हें हा तो कहो ,

गुरु-पुत्र-समर ला दूँ उसे मैं स्वस्थ जिसमें तुम रहो ।

१ गाने के योग्य । २ श्रीकृष्ण भगवान की शिक्षा समाप्त होने पर उनके
शिक्षक सान्दीपन मुनि ने उनके गुरुदक्षिणा में अपना मृत पुत्र माँगा

पर चाद एकद्वी बात यह रहता तनु स्थायी नहीं ,
 बन्धन बिनश्वर-विश्व का है सत्य सुखदायी नहीं ॥
 सच्चे अभीष्ट-स्थान का बस मार्ग ही संसार है ,
 साफल्य-पूर्वक कर चुका अभिमन्यु उसको पार है ।
 क्या शोक करना चाहिए उसके लिए मन में तुम्हें ?
 वह पुण्य-पद क्या दीखता है विश्व-बन्धन में तुम्हें ?
 जो धर्म-पालन से विमुख, जिसको विषय ही भोग्य है ,
 संसार में मरना उसीका सोचने के योग्य है ।
 जो इंद्रियो को जीत कर धर्माचरण में लीन है ,
 उसके मरण का सोच क्या ' वह मुक्त बंधन हीन है ॥
 संसार में सब प्राणियों का देह तक सम्बन्ध है ,
 पड मोह-बन्धन में मनुज बनता स्वयं ही अन्ध है ।
 तनुधारियों का बन्ध यहाँ पर चाग दिन का मेल है ,
 इस मेल के ही मोह से जाता बिगड़ सब खेल है ॥
 सम्पूर्ण दुःखों का जगत में मोह ही बस मूल है ,
 भावी विषय पर व्यर्थ मन में शोक करना मूल है ।
 निज इष्ट-साधन के लिए संसार-धारा में बहे ,
 पर नीर से नीरज-सदृश उससे अलिप्त बना रहे ॥
 उत्पत्ति होता है जहाँ पर नाश भी होता वहाँ ,
 होता विकास जहाँ सखे ! हे हस भी होता वहाँ ।

*ग और भगवान ने तत्पश्चात् यमपुरी में जाकर उमे ला दिया था ।

होता जहाँ पर सौख्य है दुख भी वहाँ अनिवार्य है ,
 करती प्रकृति अविराम अपना नियमपूर्वक कार्य है ॥
 सुख-दुख-विचार-विहीन तुमको कर्म का अधिकार है ,
 संसार में रहना नहीं, पाना अचल उद्धार है ।
 माना न तुमने एक भी, सौ सौ तरह हमने कहा ,
 अब भी तुम्हारा चित्त क्या व्याकुल विमोहित हो रहा ?”
 गद्गद हृदय से पार्थ तब बोले वचन श्रद्धा भरे ,
 “लीला तुम्हारी है विलक्षण हे अखिल लोचन हरे !
 इस आपदा से त्राण मेरा कौन करता तुम विना ?
 प्रत्यक्ष दिखला कर सभी दुख कौन हरता तुम विना ?
 जो कुछ दिखाया आज तुमने वह न भूलेगा कभी ,
 क्या दृष्टि में फिर और ऐसा दृश्य झूलेगा कभी ?”
 कहते हुए यों पार्थ फिर हरि के पदों में गिर गये ,
 प्रभु ने किये तब प्रकट उन पर प्रेम-भाव नये-नये ॥
 इसके अनन्तर पार्थ-युत कैलास पर हरि आ गये ,
 मानो सुयश के पुञ्ज पर युग कञ्ज छवि से छा गये ।
 थी यों शिवा-सेवित वहाँ ध्यानस्थ शकर की छटा ,
 मानों सुधांशु-कला-निकट निश्चल शरद की सित घटा ॥
 अर्जुन समेत रमेश ने गोरीश का वन्दन किया ,
 उठ शम्भु ने उनका बहुत सानन्द अभिनन्दन किया ।
 आशीष देकर पार्थ को वन्दन किया भगवान का ,
 रखते बड़े जन ध्यान हैं सबके उचित सम्मान का ॥

कर पुण्य-दर्शन भक्त-युत भगवान का निज गेह में ,
 कृतकृत्यता मानी गिरिश ने मग्न हो सुस्नेह में ।
 फिर नम्रता पूर्वक कहा—“किस हेतु इतना श्रम किया ?”
 हरि हँस गये, हँस आप हर ने अस्त्र अर्जुन को दिया ।
 वह अस्त्र पाकर पार्थ के औदास्य का उपशम हुआ ,
 अति तेज उनका वज्रधारी इन्द्र के ही सम हुआ ।
 समझा मरा ही-सा उन्होंने शत्रुवर अपना वहीं ,
 प्रभु का प्रसाद विशेष करता है कृतार्थ किसे नहीं ?
 होने लगे फिर हरि विदा सानन्द जब श्रीकण्ठ से ,
 कर प्रार्थना तब पार्थ बोले प्रेम-गद्गद-कण्ठ से—
 “हे भक्त-वत्सल ईश ! तुमको वार वार प्रणाम है ,
 सर्वेश । मगल कीजियो, ‘शङ्कर’ तुम्हारा नाम है ॥”
 रख हाथ खिर पर शम्भु ने जय-दान अर्जुन को दिया ,
 प्रस्थान अपने स्थान को हरि युत उन्होंने तब किया ।
 पहुँचे शिविर मे जिस समय वे हो रही थी गत निशा ,
 कुछ देर मे दर्शित हुई द्युति-दृज्य से प्राची दिशा ॥
 नूतन पवन के भिन्न प्रकृति ने साँस ली जी खोल के ,
 गाने लगी श्यामा सुतीले कण्ठ से रस घोल के ।
 बया लोक-निद्रा भंग कर यह वाक्य कुम्कुट ने कहा—
 “जागो, डठो, देखो कि नभ मुक्तावली वरसा रहा ॥”
 तमचर उलूकादिक छिपे, जा गर्जते थे रात में ,
 पाकर अँधेरा ही अधम जन घूमते हैं घात मे ।

मूखे कुसुम-सम भङ्ग गये तारागणों के गुन्ध क्या ।
 निज सत्व रख सकते भला पर-राज्य में है तुच्छ क्या ?
 जब तक हुआ आकाश में दिनकर न आप प्रकाश था ,
 उसके प्रथम ही हो गया सम्पूर्ण तम का नाश था ।
 सत्र कार्य्य कर देता बड़ों का पुण्य-पूर्ण प्रताप ही ,
 तेजस्त्रियों के विघ्न सारे दूर होते आप ही ॥
 विधि-युक्त सूतो ने वहाँ आकर जगाया तब उन्हें ,
 बातें विमोहित कर रही थी स्वप्न की वे सत्र उन्हें ।
 वे शीघ्र शय्या में उठे गुण गान कर भगवान के ;
 कर नित्य कृत्य समाप्त फिर पहुँचे स्रग्ना में आनन्दे ॥
 सम्पूर्ण स्वजनों के सहित देखा युधिष्ठिर को वहाँ ;
 विरुदावली बन्दीजनादिक गान करते थे जहाँ ।
 गुरुगुरु-स्रहित होती सुशोभित ज्यो सुरेश्वर की सभा ;
 हरि-युत युधिष्ठिर की सभा त्यो पा रही थी सुप्रभा ॥
 सबसे मिले अर्जुन वहाँ सानन्द स्मुचित गीति से ;
 पूछी कुशल रख हाथ सिर पर धर्मसुत ने प्रीति से ;
 वर्णन धनञ्जय ने किया सब हाल उनसे रात का ,
 आदेश योगा अन्त में रण में विपक्ष-निघात का ॥
 वृत्तान्त उनका श्रवण कर श्रीकृष्ण ओर निहार के ,
 पुलकित युधिष्ठिर हो गये सुध-बुन समस्त विचार के ;
 प्रेमाश्रु दीर्घ विलोचनों से निकल कर बहने लगे ;
 फिर भक्ति-विह्वल-कण्ठ से वे यो वचन कहने लगे—

“कब क्या करोगे तुम जनार्दन । जानते हो सो तुम्हीं ,
 हैं ठाठ ये जितने जगत के ठानते हो सो तुम्हीं ।
 केशव । तुम्हारे कार्य्य सारे सब प्रकार विचित्र हैं ,
 सब नेति नेति पुकार कर गाते पवित्र-चरित्र है ॥
 जैसे सुरो को वज्रधारी शक्र का आधार है ,
 हं चक्रपाणि हरे । हमारा सब तुम्हीं पर भार है ।
 संसार में सब विध हमारे सर्व-साधन हो तुम्हीं ,
 तन हो तुम्हीं, मन हो तुम्हीं, धन हो तुम्हीं, जन हो तुम्हीं ॥
 मैं बहुत कहना चाहता हूँ पर कहा जाता नहीं ,
 आश्चर्य्य है चुपचाप भी मुझसे रहा जाता नहीं ।
 भगवान् । भक्तों की भयङ्कर भूरि-भीति भगाइयो ,
 इस विपद-पारावार से प्रभु शीघ्र पार लगाइयो ॥
 अर्जुन अनुज को सोपता हूँ मैं तुम्हारे हाथ में ,
 जो योग्य समझो कीजियो प्रभुवर ! हमारे साथ में !
 दम अन्त में विनती यही है छोड़कर बातें सभी ,
 है हम तुम्हारे ही सदा, मत भूलियो हमको कभी ॥”
 यो कह युधिष्ठिर ने वचन जब मौन धारण कर लिया ,
 निश्चिन्त कर भगवान् ने तब अभयदान उन्हें दिया ।
 तत्काल ही फिर युद्ध के वाजे वहाँ बजने लगे ,
 सोत्साह जय जयकार कर सब शूर गण खजने लगे ,
 तब भीम-सात्यकि आदि को रक्षक युधिष्ठिर का बना ,
 गाण्डीवधारी पार्थ ने सबकी सफल निज कामना ।

कर वन्दना श्रीकृष्ण की वे शीघ्र ही रथ पर चढ़े ,
 बलवान वृत्रासुर-निधन को मेघवाहन^१ सम बड़े ॥
 करते हुए गर्जन गगन में दौड़ते हैं घन यथा ,
 हय-गज-रथादिक शब्द करते चल पड़े अगणित तथा ।
 उड़ने लगी सब ओर रज, होने लगी कम्पित धरा ;
 मानों न सह कर भार वह ऊपर चली करके त्वरा ॥
 पीछे युधिष्ठिर को किये आगे चले अर्जुन बली ,
 लचने लगे फण श्रेप के; मचने लगी अति खलवली ।
 अन्यत्र अनुगामी बड़ो के सुजन होते सर्वदा ,
 पर आपदा में दीखते हैं अग्रगामी ही सदा ॥

— —

पञ्चम सर्ग

या विकट शकटव्यूह सम्मुख द्रोण का कोसों अड़ा ,
 घनफण्टकितवन-तुल्य जिसका भेदना दुष्कर बड़ा ।
 पीछे जयद्रथ को छिपा छै नायकों के साथ में ,
 आचार्य्य ही थे द्वाररक्षक शस्त्र लेकर हाथ में ॥
 अवलोक सम्मुख पार्थ ने गुरु को प्रणाम किया अहा ,
 आशीश दे आचार्य्य ने उनसे प्लुत-स्वर में कहा—
 “देकर पगीक्षा आज अर्जुन ! तुष्ट तुम मुझको करो ;
 आओ, दिखाओ हस्त-कौशल, यह समर-सागर तरो ।”
 सुत-घातको को देखते ही पार्थ मानों जल उठे ,
 मुख-मार्ग से क्या त्वेष ही तो वे वहाँ न उगल उठे—
 “आचार्य्य ! मेरा हस्त-कौशल देख लेना फिर कभी ,
 अभिमन्यु का बदला तुम्हें लेकर दिखाना है अभी ॥”
 इष्ट भौति बातों में समर का ‘श्रीगणेश’ हुआ जहाँ ,
 होने लगा दत्काल ही अति-तुमुल कोलाहल वहाँ ।
 ज्यो नीर वरसाते जलद करते हुए गुरु-गर्जना .
 लडने लगे दोनों प्रवल-दल दूर परस्पर तर्जना ॥

उस ओर द्रोणाचार्य्य थे इस ओर अर्जुन वीर थे ;
 गुरु-शिष्य दोनों छोड़ते तीखे हजारो तीर थे ।
 है घोर वाद-विवाद करते दो प्रबल पण्डित यथा ,
 करने लगे दोनों परस्पर शस्त्र वे खण्डित तथा ॥
 दोनों रथो इस शीघ्रता से थे शगे को छोड़ते ,
 जाना न जाता था कि वे कब थे धनुष पर जोड़ते ।
 थे द्वाण दोनों के गगन में इस तरह फहरा रहे—
 ज्यो ऊर्मिमाली मे अनेको उरग-वर लहरा रहे ॥
 करने लगे दोनों दलों को दलित यों दोनों बली ,
 कुछ देर ही में रक्त की धारा धरा पर बह चली ।
 लड़ने लगे सब शूर सैनिक, भीति से कायर भगे ;
 सानन्द गृद्ध्र शृगाल आदिक घूमने रण में लगे ॥
 आगे न अर्जुन बढ़ सके थाचार्य्य-बल-वानूल^१ से ,
 कलोल^२ लोल-पयोधि के ज्यो बढ़ न सकते कूल से ।
 बोले वचन तब पार्थ से हरि “व्यर्थ यह संग्राम है ,
 है काल थोड़ा आर करना बहुत भारी काम है ॥”
 यो कह वचन श्रीकृष्ण ने रथ अन्य आर बढ़ा दिया ,
 चेष्टा बहुत की द्रोण ने; पर क्या हुआ उनका किया ?
 प्रबल-प्रभञ्जन-वेग-गति रोकी न जा सकती कही ,
 करने लगे वे विवश होकर व्यूह की रक्षा वही ॥

रथ देख बढ़ना पार्थ का सम्पूर्ण शत्रु दुखी हुए ,
 सब शूर पाण्डव-पक्ष के कर हर्षनाद सुखी हुए ।
 लड़ने युधिष्ठिर से लगे तब द्रोण बढ़ कर खामने ,
 संग्राम जैसा था किया गाङ्गेय से भृगुराम १ ने ।
 जिस ओर सेना थी गजों की पर्वतों के सम अड़ी ,
 उस ओर ही रथ ले गये हरि शीघ्रता करके बड़ी ।
 तब पार्थ बाणों से नतङ्गज यो पतन धाने लगे—
 घन रवि-करो से विद्ध मानो भूमि पर धाने लगे ॥
 जाज्वल्यज्वालामय अनल का फैलती जो कान्ति है ,
 कर याद अर्जुन की छटा होती डखी की भ्रान्ति है ।
 इस युद्ध में जैसा पराक्रम पार्थ का देखा गया ,
 इतिहास के आलोक में है सर्वथा ही वह नया ॥
 करता पर्यादों को प्रभञ्जन शीघ्र अस्तव्यस्त ज्यों ,
 करते लगे तब ध्वस्त अर्जुन शत्रु-सन्य-समस्त त्यों ।

१—भीष्म ने अपने भाई विचित्रवीर्य के विवाह के लिए काशिराज की तीन कन्याओं का बलपूर्वक हरण किया था । उनमें से अम्बा नामक कन्या पहले ही शाल्व ज को वरने का प्रण कर चुकी थी, इससे उन्होंने उसे छोड़ दिया । परन्तु फिर शाल्वराज ने उसके साथ विवाह करना स्वीकार न किया, तब वह भीष्म से बदला लेने की इच्छा से परशुराम की शरण में गई । उसीके सम्बन्ध में गुरु और शिष्य अर्थात् परशुराम और भीष्म में भयङ्कर युद्ध हुआ था ।

वे रिपु-शरों को काट कर रण-भूमि यों भरने लगे—
रण-चण्डिका-पूजन सरोजों से यथा करने लगे ॥
ज्यों ज्यों शरों से शत्रुओं को थे धनञ्जय मारते ,
श्रीकृष्ण थे रथ को बढ़ाते कुशलता विस्तारते ।
उस काल रथ के हृद्य तथा गाण्डीव के शर जगमगे ,
करते हुए स्पर्धा परस्पर साथ ही चलने लगे ।
शर-रूप खर-रसता१ पसारं रिपु-रुधिर पीती हुई ,
उत्कृष्ट भीषण शब्द करती जान मनचीती हुई .
अर्जुन-कराप्रोत्साहितार प्रत्यक्ष कृत्या३ मूर्ति-सी ,
करने लगे गाण्डीव-मौर्त्री४ प्रलयकाण्ड-स्फूर्ति-सी ॥
खरवाण-धारा रूप जिसकी प्रज्वलित ज्वाला हुई ,
जो वैरियो के व्यूह को अत्यन्त विकराला हुई ।
श्रीकृष्ण-रूपी वायु से प्रेरित धनञ्जय५ ने वहाँ ,
कौरव-चमू६-वन कर दिया तत्काल नष्ट जहाँ तहाँ ॥
दूटे हुए रथ थे कहीं, थे मृत्त गजाश्च७ अड़े कहीं ,
थे रुण्ड-मुण्ड-करादि रण में छिन्न-भिन्न पड़े कहीं ।
इस भाँति अस्तव्यस्त फैले दीखते थे वे सभी—
मानों हुई नभ से रुधिरमय वृष्टि यह अद्भुत अभी ।

१ जीम । २ अर्जुन के हाथ के अग्रभाग से उत्साहित की हुई ।

३ संहारकारिणी शक्ति । ४ अर्जुन के धनुष की डोरी । ५ अर्जुन,
पक्ष में अग्नि । ६ फौज । ७ हाथी घोड़े ।

गति रोकने को पार्थ की जो वीर रण करते गये ,
 क्षणमात्र में उनके शरो से वे सभी मरते गये ।
 जानें उन्होंने शत्रुगण कितने वहाँ मारे नहीं ,
 जाते किसी से है गिने आकाश के तारे कहीं ?
 इस भांति अपने वरियों को युद्ध में संहारते ,
 बढ़ने लगे आगे धनञ्जय वीरता विस्तारते ।
 पर देख दिन को गमन करते थे बहुत क्षोभित हुए ,
 अतएव दिनकर-तुल्य ही चलते हुए शोभित हुए ।
 मारी श्रुतायुध ने गदा श्रीकृष्ण का उस काल में ,
 धर वह उचट कर जा लगी उलटी उल्टी के आलश में ।
 सिर फट गया उसका वही, माना अरुण रँग का घड़ा ;
 हों विधि-विरुद्धाचार से किसको नहीं मरना पड़ा ?
 अत्यन्त दुर्गम भूमि से अविराम चलने से थके ,
 हांकर तृपित रथ-अश्व उनके जब न सत्वर चल सके ।

१ श्रुतायुध की वह गदा जो उन्होंने श्रीकृष्ण को मारी थी,
 अमोघ थी । पर सा ही यह वर भी था कि यदि युद्ध न करने
 वाले पुत्र पर छोड़ी जायगी तो पलट कर मारने वाले को ही मार
 डालेगी । श्रीकृष्ण युद्ध नहीं करते थे, पर क्रोध में आकर श्रुतायुध
 ने उन पर उनका प्रहार कर दिया । अतएव, उसका फल उलटा हुआ—
 स्वयं श्रुतायुध ही मारें गये ।

वरुणास्त्र-द्वारा पार्थ ने क्षिति से निकाला जल वहाँ ,
 भगवान की जिस पर कृपा हो कुछ कठिन उसको नहीं ॥
 रचते हुए सर-सा वहाँ निज त्राण भी करते हुए ,
 त्यों युद्ध कर निज शत्रुओं के प्राण भी हरते हुए ;
 उत्पत्ति-पालन-प्रलय के-से कृत्य अर्जुन ने किये ,
 विधि-विष्णु-हर के-से अकेले दिव्यबल दिखला दिये ।
 हय-गज-रथादिक थे जहाँ पापाणखण्ड बड़े बड़े ,
 सिर-कच-चरण-कर आदि ही जल-जीव जिसमें थे पड़े ।
 ऐसे रुधिर-नद में वहाँ रथ-रूप नौका पर चढ़े ,
 श्रीकृष्ण-नाविकयुक्त अर्जुन पार पाने को बड़े ॥
 यों देख बढ़ते पार्थ को कुरु राज अति विह्वल हुआ ,
 चेष्टा बहुत की रोकने की पर न कुछ भी फल हुआ ।
 तब वह निरा निस्तेज होकर घोर चिन्ता से घिरा ;
 जा कर निकट यों द्रोण के कहने लगा कर्कश गिरा—
 “आचार्य ! देखो, आपके रहते हुए भी आज यों ,
 दल नष्ट करता पार्थ है मृग-झुण्ड को मृगराज ज्यों ।
 हैं शूर मेरे पक्ष के वो कह रहे मुझसे सभी—
 ‘जो चाहते आचार्य तो अर्जुन न बढ़ सकते कभी’ ॥
 निज शक्ति भर मैं आपकी सेवा सदा करता रहा ,
 त्रुटि हो न कोई भी कभी, इस बात से डरता रहा ,
 सम्मान्य ! मैंने आपका अपराध ऐसा क्या किया—
 जो सामने से आपने उसको निकल जाने दिया ?

पहले वचन देकर समय पर पालते हैं जो नही ,
 वे हैं प्रतिज्ञा-घातकारी निन्दनीय लक्ष्मी कहीं ।
 मैं जानता जो पाण्डवों पर प्रीति ऐसी आपकी ,
 आती नहीं तो यह कभी बेला विकट सन्ताप की ॥
 निज सेवकों के अर्थ मन में सोच कर धर्मार्थ को ,
 घुसने न देते व्यूह मे जो आप मध्यम पार्थ को ,
 होती सहज ही से सफल तो आज मेरी कामना ,
 है कौन ऐसा आपका रण में करे जो सामना ?
 जो हो चुका सो हो चुका अब सोच करना व्यर्थ है ;
 गत काल के लौटालने को कौन शूर समर्थ है ?
 हैं किन्तु अब भी समय यदि कुछ आपको स्वीकार हो ,
 शय-पूर्ण-पारावार भी पुरुषार्थ हो तो पार हो ॥
 पूर्वानुकम्पा का मुझे परिचय पुनः देते हुए ,
 अन्तःकरण से कौरवों की तरणि को खेते हुए ,
 अब भी जयद्रथ का बचा कर अनुचरों का दुःख हरो ,
 पुरुदेव । जाता है समय, रक्षा करो, रक्षा करो ॥”
 इत्यंशं निज निन्दा श्रवण कर प्रार्थना के व्याजश मे ,
 तौ ध्रुव द्रोणाचार्य तब कहने लगे कुहराज मे—
 “है यह तुम्हारे योग्य ही जैसी गिरा तुमने कही
 तुम जो कहो, या जो करो, है सर्वदा थोड़ा बड़ी ॥

जो लोग अनुचित काम कर जय चाहते परिणाम में ,
 है योग्य बनकी-सी तुम्हारी यह दशा संग्राम में ।
 विष-बीज ब्रोने से कभी जग में सुफल फलता नहीं ,
 विश्वेश की विधि पर किसीका वश कभी चलता नहीं
 यह रण उपस्थित कर स्वयं अब दोष देते हो मुझे ।
 कह जानते है वस कुटिल जन वचन ही विष के बुझे ।
 दुष्कर्म तो दुर्बुद्धि-जन हठ-युक्त करते आप है ,
 पर क्षीप देते और को होते प्रकट जब पाप हैं ॥
 सब काल निहस्सन्देह मेरी पाण्डवों पर प्रीति है ,
 पर इस विषय मे व्यर्थ ही हांती तुम्हे यह नीति है ।
 मैं पाण्डवों को प्यार कर लड़ता तुम्हारी ओर से ;
 विचलित मुझे क्या जानते हो आत्म-धर्म कठोर से ?
 प्रेमादि जितने भाव है, वे देह के न विकार है ;
 सब मानवों के चित्त ही उनके पवित्रागार हैं !
 अतएव यद्यपि चित्त में है पाण्डवों ने घर किये ;
 पर देह के व्यापार द्वारे है तुम्हारे ही लिए ॥
 गुण पर न रीके वह अनुज है, तो भला पशु कौन है ?
 निज शत्रु के गुणगान में भी योग्य किसको मौन है ?
 तुमने खजा यो पाण्डवों से शत्रुता का साज है ,
 पर क्या न उनके शील पर आती तुम्हें कुछ लाज है ?
 मैंने तुम्हारे हित स्वयं ही क्या उठा रक्खा कहो ?
 अभिमन्यु के वध के सदृश मुझसे हुआ है अघ अहो !

जब तक न प्रायश्चित्त उसका मृत्यु से हो जायगा ,
 तब तक कभी क्या चित्त मेरा शान्ति कुछ भी पायगा ।
 तुम पुत्र-सम प्यारे मुझे हो फिर तुम्हीं सोचो भला ;
 क्या मैं तुम्हारे हित समर की शेष रक्खूँगा कला ?
 है बात यह, मुझसे विमुख हो पार्श्व अपना रथ हटा ,
 दक्षिण तरफ से व्यूह में पहुँचा जहाँ थी गज-घटा ।
 रुकता वहाँ किससे कहो वह अद्वितीय महारथी ?
 तिस पर उसे है मिल गया श्रीकृष्ण जैसा सारथी ।
 पर त्याग कर तुम व्यग्रता धीरज तनिक धारण करो ,
 कर्णादिकों के साथ उसका यत्न से चारण करो ,
 मेरा वही रहना उचित है व्यूह-रक्षा के लिए ,
 तिस पर युधिष्ठिर पर विजय को मैं प्रतिज्ञा हूँ किये ।
 तुम कौन कम हो पार्थ से, उत्साह को छोड़ो नहीं ,
 होता जहाँ उत्साह है होती सफलता भी वही ॥
 यद्यपि नहीं होते सभी के एक से पुरुषार्थ हैं ,
 तुम भी उसी कुल में हुए जिसमें हुए ये पार्थ हैं ।
 यह खेल पाँसों का नहीं है, प्राण का पणश आज है ;
 जो आज जीतेगा उसी का जीतना कुरुराज है ॥
 जिसको पहन कर इन्द्र ने वृत्रासुरायुध सह लिये ,
 जिसके लिए मैंने बहुत से व्रत तथा तप हैं किये ।

है वज्र को भी चोट जिससे सहज जा सकती सही ,
 आओ, तुम्हें मैं दिव्य अपना कवच पहना दूँ वही ॥”
 आचार्य्य ने तब वह कवच कुरुराज को पहना दिया ;
 उस काल सचमुच शक्र-सा ही तेज उसने पा लिया ।
 कर वन्दना गुरु की मुदित वह पार्थ से लड़ने चला ,
 विख्यात विन्ध्याचल यथा आकाश से अड़ने चला ।
 चिन्तित युधिष्ठिर भी हुए इस ओर अर्जुन के लिए ;
 निज भाव सात्यकि पर उन्होंने शीघ्र यो प्रकटित किये—
 “हे वीर ! अर्जुन का न अब तक वृत्त कुञ्ज विश्रुत हुआ ,
 जगदीश जानें क्यों हमारा चित्त चिन्ता-युत हुआ ॥
 हा । वह कपिध्वज की ध्वजा भी दृष्टि में आती नहीं ,
 उनकी रथ-ध्वनि भी यहाँ अब है सुनी जाती नहीं ।
 जब से हुए हैं ओट वे अब तक न दीख पड़े मुझे ,
 हे दैव ! बतला तो सही स्वीकार है अब क्या तुम्हें ?
 हैं व्यग्र सुनने को श्रवण पर श्रव्य सुन पाते नहीं ;
 दृग् दीन हैं पर दृश्य फिर भी दृष्टि में आते नहीं ।
 है चाहती खिलना तदपि मन की कली खिलती नहीं ;
 मैं शान्ति पाना चाहता हूँ पर मुझे मिलती नहीं ॥
 होंगे न जाने किस दशा मे हरि तथा अर्जुन कहाँ ?
 हा । आज पल पल में विकलता बढ़ रही मेरी यहाँ ।
 कुञ्ज बात ऐसी है कि जिससे चित्त चञ्चल हो रहा- ,
 विश्वास है, पर त्रास मेरे धैर्य को है खो रहा ॥

हे सात्यके । अब शीघ्र मुझको शान्ति देने के लिए ,
जाओ मुकुन्दार्जुन-निकट संवाद लेने के लिए !
कुछ भी विलम्ब करो न अब, करता विनय मैं क्लेश से ,
अनुचित लगे यदि विनय तो जाओ अभी आदेश से ॥
इस कार्य-साधन के लिए मैंने तुम्ही को ही चुना ,
हो अनुभवी तुम वीर, तुमने बहुत कुछ देखा सुना ।
सप्रेम अर्जुन ने तुम्हें दी युद्ध की शिक्षा सभी ,
अतएव, अनुगामी बनो तुम आप निज गुरु के अभी ॥
चिन्ता करो मेरी न तुम रक्षक त्रिलोकीनाथ हैं ,
सहदेव, धृष्टद्युम्न आदिक गूर अगणित साथ हैं ।
अवसर नहीं है देर का, अब शीघ्र तुम तैयार हो ,
आशीष देता हूँ—तुम्हारा पथ सहज ही पार हो ॥”
यो सुन युधिष्ठिर के वचन सप्रेम सात्यकि ने कहा—
“है मान्य मुझको आर्य का आदेश जो कुछ हो रहा ।
पर कृष्ण-सहचर के लिए कुछ सोच करना है वृथा ,
हरि के कृपाभाजन-जनो के कुशल की है क्या कथा ?
त्रैलोक्य में ऐ ॥ बली आता नहीं है दृष्टि में ,
जीवित खड़ा जा रह सके नाण्डोव को शर-वृष्टि में ।
कैसे टलेगा पार्थ का प्रण जो नहीं अब तक टला ।
जो बात होने की नहीं किस भौति वह होगी मन्दा ?
आदेश पाकर आपका जाता अभी मैं हूँ वहाँ ,
पर आप द्रोणाचार्य से अति सजग रहिरगा यहाँ ।

हो क्षुब्ध, मर्यादा-रहित-जलनिधि-सदृश वे हो गहे :
 उनके सुबल-कल्लोल में सब आज फिरते हैं वहे ॥”
 कह कर वचन यों वृष्णिनन्दन सात्यकी प्रस्तुत हुआ ,
 इस कार्य ने उसका पराक्रम पार्थ-सा ही श्रुत हुआ ।
 वह शत्रुओं को मारता सम्मुख पहुँच आचार्य के ;
 लड़ने लगा कौशल प्रकट कर विविध विध गण-कार्य के ॥
 पड़ मार्ग में ज्यो रोक लेता शैल जल की धार को ,
 त्यो देख रुकता द्रोण से अपनी प्रगति के द्वार को ।
 ऋट सात्यकी भी पार्थ की ही रीति से हँस कर चला ,
 जो कार्य गुरु ने है किया वह शिष्य क्यों न करे भला ॥
 होकर प्रविष्ट व्यूह में तब पार्थ की ही नीति से ,
 सात्यकि गमन करने लगा, कर युद्ध अद्भुत रीति से ।
 दावाग्नि से मचती विपिन में ज्यो भयङ्कर खलवली ,
 करने लगा निज वैरियों को व्यस्त त्यो ही वह बली ॥
 सात्यकि गया, पर, स्वस्थ तो भी धर्मराज हुए नहीं ,
 भेजा उन्होंने भीम को भी अनुज की सुध को वहीं ।
 रखते न अपनी आप उतनी चित्त में चिन्ता कभी ,
 निज प्रियजनो का ध्यान जितना श्रेष्ठ जन रखते सभी ॥
 अर्जुन तथा सात्यकि-गमन से द्रोण थे क्षोभित बढ़े ,
 अतएव पहुँचे भीम जब बोले वचन वे यों कड़े—
 “अर्जुन-सदृश क्या भीम तू भी व्यूह में घुसने चला ?
 क्या छल तुझे भी प्रिय हुआ जब से शकुनि ने है छला !”

सुन कर वचन आचार्य के हँस भीम ने उत्तर दिया—
 “गुरु से धनञ्जय ने न लड़ कर तात । क्या छल है किया ?
 छल-छद्म करने मे लदा हम सब निरे अनविज्ञ है ,
 इस काम में तो बस हमारे बन्धु ही बर विज्ञ है ।
 हाँ, कार्य अर्जुन का यही समुचित न जा सकता गिना ,
 रिपु मारने जां वे गये गुरु-दक्षिणा सौपे विना ।
 हे आर्य्य । वह ऋण व्याज-युत अब मैं चुकाता आपको ,
 तैयार होकर लीजिये, तजिये हृदय के ताप को ॥”
 कह कर वचन यों भीम उन पर बाण बरसाने लगे ,
 अद्भुत, अपूर्व, असौम अपनी शक्ति दरसाने लगे ।
 पर काट कर सब बाण उनके तोड़ कर रथ भी अहा ।
 “गुरु-ऋण अभी न चुका वृकोदर !” द्रोण ने हँसकर कहा ॥
 घायल हुआ मृगराज ज्यो हतबुद्धि हांता क्रोध से ,
 क्राधित हुए त्यो भीम भी आचार्य के इस बोध से ।
 करते हुए त्यो ओष्ठ-दंशन अरुण हो अपमान से ,
 शोभित हुए वे दौड़ते निज बन्धुवर हनुमान-से ॥
 ज्यो द्रोणगिरि वज्राङ्ग ने था हाथ पर धारण किया ,
 त्यो द्रोण-रथ को भट्ट उन्होंने एक साथ उठा लिया ।
 बन्दुक-सदृश फिर दूर नभ में शीघ्र फेंक दिया उसे ,
 कर सिंहनाद सवेग तब वे व्यूह के भीतर घुसे ॥
 हाने लगी अति घोर ध्वनि सब ओर हाहाकार की ,
 आशा रही न किसी किसीको द्रोण के उद्धार की ।

पर बीच ही में कूद रथ से वृद्ध गुरु आगे बढ़े ,
 फिर युद्ध करने के लिए वे दूसरे रथ पर चढ़े ॥
 रथ युक्त फिर भी भीम ने फेंका उन्हें अति रोष से ,
 पूरित किया फिर व्योम को घन तुल्य अपने घोष से ।
 कर युद्ध वारंवार यों ही द्रोण को 'गुरु-ऋण' चुका ,
 वह वीर पहुँचा व्यूह में, न कराल शस्त्रों से रुका ॥
 जब वायु-विक्रम भीम पर वश द्रोण का न वहाँ चला ,
 हो क्रुद्ध उन कुल-दीप ने तब पाण्डवों का दल मला ।
 फिर धर्मभीरु अजातरिपु को युद्ध से विचलित किया ,
 इस भाँति निज अपमान का अभिमान-युत बदला लिया ॥
 दैत्यारि ने ज्यों भूमि-हित था सिन्धु को विदलित किया ,
 उस ओर त्यों ही भीम ने भी व्यूह को विचलित किया ।
 होने लगे रिपु नष्ट यों उनके प्रचल-भुजदण्ड से ,
 होते तृणादिक खण्ड ज्यों वातूल-जाल-प्रचण्ड से ॥
 मिल दुष्ट दुर्योधन-अनुज तब भीम से लड़ने लगे ,
 पर शीघ्र मर मर कर सभी वे भूमि पर पड़ने लगे ।
 अम्भोज-वन को मत्त गज करता यथा मर्दितस्वतः ,
 मारा वृकोदर ने उन्हें ऋट ऋपट झूम इतस्ततः ॥
 होकर पराजित, भीति, कातर शीघ्र उस बलधाम से ,
 सब सैन्य हाहाकार कर भगने लगी संग्राम से ।
 तब वीर कर्ण समक्ष सत्वर उग्र साहस-युत हुआ ,
 उस काल दोनों में वहाँ पर युद्ध अति अद्भुत हुआ ॥

बहु बाण सह कर कर्ण के मारी वृकोदर ने गदा ,
 सम्मुख चली इस भाँति वह प्रत्यक्ष मानों आपदा ।
 पर वज्र सम जब तक गिरे रथ पर गदा वह भीम की ,
 रथ छोड़ने में शीघ्रता राधेय ने निस्सीम की ॥
 वह तो किसी विध बच गया भट्ट कूद रथ के द्वार से ;
 पर सूत, हय, रथ, नष्ट होने से बचे न प्रहार से ।
 हो अति क्रुपित वह वीर तब भट्ट दूसरे रथ पर चढ़ा ,
 मध्याह्न का मार्तण्ड मानो धा महाद्युति से मढ़ा ॥
 शर मार तत्क्षण भीम को व्रण-पूर्ण उम्रने कर दिया ,
 बलवन्त-वीर वसन्त ने किसुक यथा विकसित किया ।
 करते हुए तब देह-रक्षा मृत गजों की ढाल से ,
 बढ़ने अगाड़ी ही लगे वे शीघ्र तिरछी चाल से ॥
 पर, अर्जुनाधिक पाण्डवों का वध न करने के लिए ,
 करुणार्द्र होकर कर्ण ने थे वचन कुन्ती को दिये १ ।

१ कर्ण वास्तव में कुन्ती के पुत्र थे । भारतीय युद्ध होने के पहले कुन्ती ने एक दिन कर्ण से यह बात कही और प्रार्थना की कि वे दुर्योधन का पक्ष छोड़ कर युधिष्ठिर के पक्ष में हों जायें, पर दृढ़ प्रतिज्ञ कर्ण ने ऐसे समय में दुर्योधन का साथ छोड़ देना धर्म विरुद्ध समझा, तथापि माता समझकर उन्होंने कुन्ती को वचन दिया कि अर्जुन के सिवा और किसी पाण्डव को वे युद्ध में न मन्नेगे । इसीमें अवसर पाकर भी उन्होंने भीमसेन को नहीं मारा ।

पाकर सुअवसर भी इसी से मोचकर उस बात को ,
 निर्जीव मात्र किया नहीं उसने वृकोदर-गात को ॥
 हँसता हुआ तब भीम का उपहास वह करने लगा ;—
 “रे खल ! खड़ा रह, क्यों समर से दूर फिरता है भगा
 तुझसे बनेगा क्या भला जो पेट ही भर जानता ।
 रे मूढ़ ! अपने को वृथा ही वीर है तू मानता ॥”
 प्रण था धनञ्जय ने किया राधेय के भी घात का ,
 उत्तर दिया कुछ भीम ने इससे न उसकी बात का ।
 अति रोष तो आया उन्हें तो भी उसे मारा नहीं ,
 सम्मान से भी धर्म-बन्धन हो किसे प्यारा नहीं ?

षष्ठ सर्ग

उस ओर था भूरिश्रवा से वीर सात्यकि लड़ रहा ,
 भङ्गानिल प्रेरित जलद ज्यो हो जलद से अड़ रहा ।
 बहु युद्ध करने से प्रथम ही था यदपि सात्यकि थका ;
 पर देख अर्जुन को निकट उत्साह से वह था छका ॥
 उस काल दोनों में परस्पर युद्ध वह ऐसा हुआ ,
 है याग्य कहना वस यही—अद्भुत वही वैसा हुआ ।
 सब वीर लड़ना छोड़ क्षण भर देखने उसका लगे ,
 कह 'धन्य धन्य' पुकार कर सब रह गये गुण पर ठगे ;
 रथ-अथ दानों के शरो से साथ दोनों के मरे ,
 प्रण-पूर्ण दोनों हो गये तो भी न वे मन में डरे ।
 करने लगे फिर क्रुद्ध दानों बाहु-युद्ध विशुद्ध यो—
 युग गिरि स्यक्ष खनक्ष हो लड़ते विपक्ष-विरुद्ध ज्यो—
 लड़ते हुए सात्यकि हुआ जब श्रभित शोणित से सना ,
 तब खड़ से भूरिश्रवा ने शीश चाहा काटना ।
 पर चार ज्यो ही कर उठा जर वेग से उसने किया ,
 तो ही धनद्वय के विशिख ने काट उसका कर दिया ।

कर्वाल-युत जब केतु-सम भूरिश्रवा का कर गिरा ,
 सब शत्रु तब कहने लगे इस कार्य को अनुचित निरा ।
 वृषसेन, कर्ण कृपादि ने धिक्कार अर्जुन को दिया—
 “धिक् धिक् धनञ्जय ! पापमय दुष्कर्म यह तुमने किया ॥”
 बोले वचन तब पार्थ उनसे लीन होकर रोप में—
 “क्या निज जनों का त्राण करना सम्मिलित है दोष में ?
 मेरा नियम यह है जहाँ तक बाण मेरा जायगा ,
 अपने जनों को आपदा से वह अवश्य बचायगा ॥
 नास्तिक मनुज भी विपद् में करते विनय भगवान से ,
 देते दुहाई धर्म की त्यों आज तुम भी ज्ञान से ।
 लज्जा नहीं आती तुम्हें उपदेश देते धर्म का ?
 आती हँसी तुम पापियो से नाम सुन सत्कर्म का ॥
 देखे विना निज कर्म पहले बोध देना व्यर्थ है ,
 होता नहीं सद्धर्म कुछ उपदेश के हा अर्थ है ।
 तुम सात ने जत्र वध किया था एक बालक का यहाँ ,
 रे पामरो ! तब यह तुम्हारा धर्म सारा था कहाँ ?
 पापी मनुज भी आज मुहँ से राम नाम निकालते ।
 देखो भयङ्कर भेड़िये भी आज आँसू डालते ।
 आजन्म नीच अधर्मियों के जो रहे अधिराज हैं—
 देते अहो ! सद्धर्म की वे भी दुहाई आज हैं ॥”
 सुन कर वचन यों पार्थ के चुप रह गये वैरा सभी ,
 दोषी किसी के सामने क्या सिर उठा सकते कभी ?

भूरिश्रवा का वध किया ले खड्ग सात्यकि ने वही ,
 'जिसकी खिरोही सिर उसी का' उक्ति यह कर दी सही ॥
 उत्साह-संयुत उस समय ही भीम आ पहुँचे वहाँ ,
 मिल कर चले फिर शीघ्र सब था सिन्धुराज छिपा जहाँ ।
 पहुँचे तथा वे जब वहाँ निज मार्ग निष्कण्टक बना ,
 कृप, कर्ण, शल्य, द्रोणि से करना पड़ा तब सासना ॥
 खल शकुनि-दुःशासन-सहित जो जानता छल-कर्म को ,
 पहुँचा वहाँ कुरुराज भी पहने अलौकिक वर्म को ।
 पीछे जयद्रथ को किये दृढ़ व्यूह-सा आगे बना ,
 करने लगे संग्राम वे करके विजय की कामना ॥
 लड़ते मरुण-यक्षेश-युत देवेन्द्र दैत्यों से यथा ,
 लड़ने लगे अर्जुन वहाँ पर भीम सात्यकि-युत तथा ।
 दोनों तरफ से छूटते थे बाण विद्युत्खण्ड ज्यों ,
 अति घोर मारुत-तुल्य रव थे कर रहे कोदण्ड त्यों ॥
 रथ-अश्व भी मिल कर परस्पर सामने बढ़ने चले ,
 थं एक पर वे एक मानों चोट कर चढ़ने चले ।
 थे वीर यों शोभित सभी रँग कर रुधिर की धार से ,
 होते सुशोभित शैल ज्यों गैरिक छटा-विस्तार से ॥
 इधर ओर थे ये तीन ही, उस ओर वे छै सात थे ;
 तिस पर असंख्यक शूर उनके कर रहे आघात थे ।
 पर कर रहे वर वीर ये वीरत्व व्यक्त विशेष थे ,
 मानो प्रबल तीनों बलो विाध विष्णु आर महेश थे ॥

तब कर्ण ने दस दस शरों से विद्ध कर हरि-पार्थ को ,
 दर्शित किया मानो वहाँ दुगुने प्रबल पुत्रपार्थ को ।
 पर सूत, हय, रथ और उसका नष्ट करके चाप भी ,
 कर चौगुना विक्रम हुए शोभित धनञ्जय आप भी ॥
 तत्काल ही फिर लक्ष्य करके कर्ण के वर कक्ष को ,
 छोड़ा कपिध्वज ने क्षुपित हो एक बाण समक्ष को ,
 पर बीच में ही द्रोण-सुत ने काट उसको बाण से ,
 जाते हुए लौटा लिये उस वीर वर के प्राण-से ॥
 फिर एक साथ असंख्य शर सब शत्रुओं ने मार के ,
 नरसिंह अर्जुन को किया ज्यों पत्थरस्थ प्रचार के ।
 पर भस्म होता है यथा इन्धन कराल कुशानु से ,
 ऐन्द्रास्त्र से कर नष्ट वे शर पार्थ प्रकटे भानु-से ॥
 टङ्कार-ही निर्घोष था, शर-वृष्टि ही जल-वृष्टि थी ;
 जलती हुई रोषाग्नि ही उद्दीप्त विद्युत्-वृष्टि थी ।
 गाण्डीव रोहित-रूप था, रथ ही सशक्त-समीर था ;
 उस काल अर्जुन वीर-वर अद्भुत-जलद गम्भीर था ।
 थे दिव्य-वर पाये हुए सब शत्रु भी पूरे बली ,
 अतएव वे भी स्थित रहे सह पार्थ-शर-धारावली ।
 इस ओर यों ही हो रहा जब युद्ध यह उदण्ड था ,
 उस ओर अस्ताचल-निकट तब जा चुका मार्तण्ड था ॥
 फिर देखते ही देखते वह अस्त भी क्रम से हुआ ,
 कब तक रहेगा वह अटल जो क्षीण-बल श्रम से हुआ ?

प्रण पूर्ण पार्थ न कर सके, रवि पथस ही घर को गया ,
 सम्भावना ही थी न जिसकी हाथ ! यह क्या हो गया !
 उस काल पश्चिम ओर रवि धी रह गई बस लालिमा ,
 होने लगी कुछ कुछ प्रकट-सी यामिनी की कालिमा ।
 सब कोक-गण शोकित हुए विरहाम्नि से डरते हुए ,
 आने लगे निज निज गृहों को विहग रव करते हुए ॥
 यो अस्त होना देख रवि का पार्थ मानों हत हुए ,
 मुँदते कमल के साथ वे भी विमुद, गारव गत हुए ।
 लेकर उन्होंने श्वाण उँचा, वदन नीचा कर लिया ,
 संग्राम करना छोड़ कर गाण्डीव रथ में रख दिया ॥
 पूरी हुई होगी प्रतिज्ञा पार्थ की इससे सुखी ,
 पर चिह्न पाकर कुछ न उसके व्यग्र चिन्तायुत दुखी ,
 राजा युधिष्ठिर उस समय दोनों तरफ क्षोभित हुए ,
 प्रमुदित न विमुदित उस समय के कुतुम्ब-सम शोभित हुए ॥
 इस ओर आना जान निशि का थे मुदित निश्चर बढ़े ,
 उस ओर प्रमुदित शत्रुओं के हाथ मूँटों पर पड़े ।
 दुर्यधिनादिक कौरवों के हर्ष का क्या पार था—
 मानो उन्होंने पा लिया त्रैलोक्य का अधिकार था ॥
 बोला जयद्रथ से तदन कुनुरा न तव नानन्द यो—
 “हे वीर ! रण में अब नहीं तुम घूमते स्वच्छन्द क्यों ?
 अब सूर्य के सम पार्थ वो भी अस्त होते देख लो ,
 चल कर समस्त विपक्षियों को वदस्त होते देख लो ॥”

कह कर वचन कुरुराज ने यों हाथ उसका धर लिया ,
 कर्णादि के आगे तथा उसको खड़ा फिर कर दिया ।
 उस काल निर्मल-मुकुट-सम उसका वदन दर्शित हुआ ,
 पाकर यथा अमरत्व वह निज हृदय में हर्षित हुआ ॥
 खल शत्रु भी विश्वास जिनके सत्य का यो कर रहे ,
 निश्चिन्त, निर्भय, सामने ही सोद-नद में तर रहे ।
 है धन्य अजुन के चरित को, धन्य उनका धर्म है ;
 क्या और हो सकता अहो ! इससे अधिक सत्कर्म है ?
 वाचक विलोको तो जरा, है दृश्य क्या मार्मिक अहो !
 देखा कहीं अन्यत्र भी क्या शील यो धार्मिक कहां ?
 कुछ देख कर ही मत रहो, सोचो विचारो वित्त में ,
 बस, तत्व है अमरत्व का वर-वृत्तरूपी वित्त में ;
 यह देख लो निज धर्म का सम्मान ऐसा चाहिए ,
 सोचो हृदय में सत्यता का ध्यान जैसा चाहिए !
 सहृदय जिसे सुन कर द्रवित हों चरित वैसा चाहिए ,
 अति भव्य भावों का नमूना और कैसा चाहिए ?
 क्या पाप की ही जीत होती, हारता है पुण्य ही ?
 इस दृश्य को अवलोक कर तो जान पड़ता है यही ।
 धर्मार्थ दुःख सहे जिन्होंने पार्थ मरणासन्न हैं ,
 दुष्कर्म ही प्रिय है जिन्हें वे धार्तराष्ट्र प्रसन्न हैं ।

परिणाम सोच न भीम-सात्यकि रह सकें क्षण भर खड़े ,
 'हा कृष्ण !' कह हरि के निकट बेहोश होकर गिर पड़े ।
 यो देख कर उनकी दशा दृग बन्द कर अरविन्द-से ,
 कहने लगे अर्जुन वचन इस भाँति फिर गोविन्द से—
 “रहते हुए तुम-सा सहायक प्रण हुआ पूरा नहीं !
 इससे मुझे है जान पड़ता भाग्य-बल ही सब कही ।
 जल कर अनल से दूसरा प्रण पालता हूँ मैं अभी ,
 अन्युत । युधिष्ठिर आदि का सब भार है तुम पर सभी ॥
 सन्देश कह दीजो यही सबसे विशेष विनय-भरा—
 खुद ही तुम्हारा जन धनञ्जय धर्म के हित है गरा ।
 तुम भी कभी निज प्राण रहते धर्म को मत छोड़ियो ,
 वैरी न जब तक नष्ट हो मत युद्ध से मुहँ मोड़ियो ॥
 श्रे पाण्डु के सुत चार ही, यह सोच धीरज धारियो ;
 हो जो तुम्हारे प्रण-नियम इनको कभी न विसारियो ।
 है इष्ट सुभक्तों भी यही यदि पुण्य मैंने हों किये ,
 तो जन्म पाऊँ दूसरा मैं वैर-शोधन के लिए ॥
 कुछ कामना सुभक्तों नहीं है इस दशा में स्वर्ग की ,
 इच्छा यही रखता अभी मैं अल्प भी अपवर्ग पी ।
 दा । दा । कहीं पूरी हुई वैरी सभी धाराधना ,
 अभिमन्यु विषयक वैर की है शेष उक्त ही माधना ।
 कएना किसीसे और सुभक्तों अब न कुछ जन्देश है ,
 पर शेष दा जन है अभी जितना दंड ही कटेप है ।

कृष्णा-सुभद्रा से कहूँ क्या ? यह न होता जात है ,
 मैं सोचता हूँ किन्तु हा ! मिलती न कोई बात है ।
 जैन वन समझा बुझा कर धैर्य सबको दीजियो ,
 कह दीजियो, मेरे लिए मत शोक कोई कीजियो ।
 अपराध जो मुझसे हुए हो वे क्षमा करके सभी ,
 कृपया मुझे तुम याद करियो स्वजन जान कभी कभी ॥
 हा धर्मधीर अजातशत्रु ! आर्य्य भोम ! हरे ! हरे !
 हा प्रिय नकुल ! सहदेवभ्रात. ! उत्तरे ! हा उत्तरे !
 हा देवि कृष्णे ! हा सुभद्रे ! अब अधम अर्जुन चला ;
 धिक् है—क्षमा करना मुझे—मुझसे हुआ रिपु का भला ;
 जैसा किया होगा प्रथम वैसा हुआ परिणाम है ,
 माधव बिदा दो दस मुझे अब, वार वार प्रणाम है ।
 इस भौंति मरने के लिए यद्यपि नहीं तैयार हूँ ,
 पर धर्म्म-बन्धन-वद्ध हूँ मैं क्या करूँ लाचार हूँ ॥”
 इस भौंति अर्जुन के वचन श्रीकृष्ण थे जब सुन रहे ,
 हँस कर जयद्रथ ने तभी ये विष-वचन उनसे कहे—
 “गोविन्द, अब क्या देर है प्रण का समय जाता टला !
 शुभ-कार्य जितना शीघ्र हो, है नित्य उतना ही भला ॥”
 सुन कर जयद्रथ का कथन हरि को हँसी कुछ आ गई ,
 गम्भीर श्यामल मेघ में विद्युच्छटा-सी छा गई ।
 कहते हुए यों— वह न उनका भूल सकता वेश है—
 “हे पार्था प्रण पालन करां, देखो अभी दिन शेष है ॥”

हो पूर्ण जब तक पार्थ-प्रति त्रभु का कथन ऊपर बहा ,
 तब तरु महा अद्भुत हुआ यह एक कौतुक-सा अहा !
 मार्तण्ड अस्ताचल निकट घन-मुक्त-सा देखा गया ।
 है जान सकता कौन हरि का कृत्य नित्य नया नया ?
 था पार्थ के हित के लिए यह खेल नटवर ने किया ,
 दिन शेष रहते सूर्य को था अस्त-सा दिखला दिया ।
 अनुकूल अवसर पर उसे फिर कर दिया यो व्यक्त है ,
 वह भक्तवत्सल भक्त पर रहता सदा अनुरक्त है ॥
 तत्काल अर्जुन की अचानक नींद मानो हट गई ,
 सब ही गई उनको विदित माया-महा-विस्मयसयी ।
 अवलोक तब हरि को उन्होंने एक बार विनींद से ,
 निकटस्थ शीघ्र एटा लिया गाण्डीव अति आनंद से ॥
 इस स्वप्न के-से दृश्य ने नद शत्रु विस्मित रह गये ,
 कर्तव्यमूढ़-स्रमान वे नैराश्य-नद में बह गये ।
 उस काल उनका तेज मानो पार्थ को ही मिल गया ,
 तब तो सदा से साँसुना मुख शीघ्र उनका खिल गया ॥
 ही भीस-सात्यकि भी सजग आनन्द रव करने लगे ,
 निज चक्र निष्कल देख कर वैरी सभी डरने लगे ।
 तब सरमुखस्थित जाल-गत जो था हरिण-सा हां रहा ,
 उस खल जयद्रथ ने क्रुपित हो यो धनञ्जय ने कहा—
 'रे नीच ! अब तैयार हो तू शीघ्र मरने के लिए ,
 मेरा यही अवसर समझ प्रण-पूर्ण करने के लिए ।

है व्यर्थ चेष्टा भागने की, मृत्यु का तू प्राप्त है ;
 भज 'रामनाम' नृशंश ! अब तो काल पहुँचा पास है ॥”
 गति देख अन्य न एक भी निज कर्म के दुर्दोष से ,
 करने लगा तत्क्षण जयद्रथ शस्त्र वर्षा रोष से ।
 आशा नहीं रहती जगत में प्राण रहने की जिसे ,
 उसका भयङ्कर-वेग सहसा सख्य हो सकता किसे ?
 पर पार्थ ने सह ली व्यथा सब शत्रु के आघात की ,
 आनन्द के उत्थान में रहती नहीं सुध गात की !
 गाण्डीव से तत्काल वे भी बाण बरसाने लगे ,
 जो उग्र उल्का-खण्ड-से चण्डच्छट्टा छाने लगे ॥
 कर्णादि ने की व्यक्त फिर भी युद्ध कौशल की कला ,
 पर हो गई चेष्टा विफल सत्र, बस न कुछ उनका चला ।
 विचलित-दलित करता द्रुमों को प्रवल-भङ्गानिल यथा ,
 सब शत्रुओं को पार्थ ने पल में किया विह्वल तथा ॥
 फिर पुष्प-माला युक्त मन्त्रित दिव्यद्युति के ओघ-सा ,
 रक्खा धनञ्जय ने धनुष पर बाण एक अमोघ-सा ।
 क्षण भर उसे सन्धानने में वे यथा शोभित हुए ,
 हों भाल-नेत्र-ज्वाल हर ज्यों छोड़ते क्षोभित हुए ॥
 वह शर इधर गाण्डीव-गुणर से भिन्न जैसे ही हुआ ,
 धड़ से जयद्रथ का उधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ ।

रक्ताक्त वह सिर व्योम में उड़ता हुआ कुछ दूर-सा ,
 दीक्षा अरुणतम उस समय के अस्त होते सूर-सा ॥
 अर्जुन विशिख तो लौट आया पर न रिपु का सिर फिरा ,
 अपने पिता की गोद में ही वह अचानक जा गिरा ।
 रण से अलग इसका पिता तप कर रहा था रत हुआ ।
 भगवान की इच्छा, तनय के साथ वह भी हत हुआ ।
 श्रीकृष्ण, अर्जुन, भीम, सात्यकि शङ्ख-रव करने लगे ,
 हर्षित हुए सबके वदन, मन मोद मे भरने लगे ।
 प्रत्यक्ष कौरव पक्ष की तब नासिका-सी कट गई ,
 मानो विकल कुरुराज की शोकार्त छाती फट गई ।



१ जयद्रथ के पिता वृद्धक्षत्र ने धार तपस्या करके यह वर प्राप्त किया था कि जिसके द्वारा मेरे पुत्र का सिर पृथ्वी पर गिरे उसका सर भी उसी समय सौ टुकड़े हाकर पृथ्वी पर गिर पड़े । जिस समय अर्जुन का छोटा पाशुपत अस्त्र जयद्रथ के सिर को ढेकर उड़ा उस समय वृद्धक्षत्र समन्त-यज्ञक तीर्थ में साय-संध्या कर रहे थे । पाशुपत के प्रभाव से जयद्रथ का सिर वहीं उनकी गोद में जा गिरा । वे घबड़ा कर सहसा उठ खड़े हुए । उनके उठते ही वह सिर उनकी गोद से पृथ्वी पर गिर पड़ा । साथ ही उनका सिर भी सौ टुकड़े होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा ।

स्वप्नम सर्ग

इस विध जयद्रथ-वध हुआ, पूरा हुआ प्रण पार्थ का ;
 अब धर्मराजार्युन मिलन है, मिलन ज्यों धर्मार्थ का ।
 वर्णन अतः उसका यहाँ पर है उचित ही सर्वथा ,
 सर्वत्र ही कथनीय है सुख-सम्मिलन की शुभ-कथा ॥
 सूर्यास्त होना जान कर फिर जन लड़ाई रुक गई ,
 निष्प्रभ पराजित कौरवों की रण-पताका झुक गई ,
 तब नृप युधिष्ठिर के निकट आनन्द से जाते हुए ,
 बोले वचन हरि पार्थ से रण भूमि दिखलाते हुए—
 “हे वीर ! देखो, आज तुम संग्राम में कैसे लड़े ,
 मर कर तुम्हारे हाथ से ये शत्रु कितने हैं पड़े !
 ज्यों कञ्ज-वन की दुर्दशा कर डालता गजराज है ,
 शोभित तुम्हारे शौर्य से त्यो यह रणस्थल आज है ॥
 जो तुच्छ अपने सामने थे इन्द्र को भी मानते—
 जो कुछ कहो बस हैं हमी, जो थे खदा यह जानते ,
 वे शत्रु, देखो, आज भू पर सर्वदा को सो रहे ;
 हैं मर चुके लाखों तथा घायल हजारों हो रहे ॥

लुकते किसीको थे न जो नृप-मुकुट रत्नों से जड़े ,
 वे अब शृगालों के ढोंकों की टोंकें ग्याने पड़े ।
 पेशी १ समझ माणिक्य को वह विहरा देग्यो, ले चला .
 पद भोग की ही भ्रान्ति में रांसार जाता है छला ॥
 हो सुग्ध गृध्र जिन्ही किसी के लोचनों की खींचने ,
 यह देख कर घायल मनुज अग्ने ढंगों को खींचने ।
 मानो न अब श्री वैश्यों का मोह पृथ्वी से नटा ,
 लिपटै हुए नखसे पड़े, दिग्वला रहे अन्तिम छटा ।
 सद्यपि हमारे रथ-हथों का श्रम हुआ गविजोर है ,
 पर शूल-सा उत्तको गया इष्ट नम्य मारा क्लेश है ।
 पश्यादिर भी निज स्वाभियों के साथ या पञ्चानने ,
 सब निज जनो के दुःख में दुःख, मौख्य में दुःख मानने ॥
 इस जोर देरो, रक्त धी यह कीच कैसी मच रही ।
 है पट रही खण्डित हुए बहु कण्ठ-गुण्डों से मही ।
 कर-पद असंख्य कटे पड़े, शस्त्रादि फैले हैं तथा ,
 रङ्गस्थली ही मृत्यु की एकत्र प्रकटी तो गया ।
 दुर्याधनातुज है पड़े ये भीम के सारे हुए ,
 काम्बोज-नृप वे सात्यकी के हाथ से हारे हुए ।
 मृत अच्युतायु-श्रुतायु हैं ये, वह अलम्बुप है मरा ,
 यह खोमदत्तात्मज पड़ा है, रक्त-रञ्जित है धरा ॥

१ बोटी । २ पशु आदिक ।

यद्यपि निहत होकर पड़े ये वीर अब निःशक्त हैं .
 पर कौरवों का तेज अब भी कर रहे ये व्यक्त हैं ।
 बल-विभव में कुरुराज सचमुच दूसरा सुरराज है ,
 पाई विजय प्रारब्ध से ही पार्थ । तुमने आज है ।”
 श्रीकृष्ण के प्रति वचन तब बोले धनञ्जय भक्ति से ,—
 “क्या कार्य्य कर सकता हरे । मैं आप अपनी शक्ति से ?
 है सब तुम्हारी ही कृपा, हूँ नाम का ही वीर मैं ;
 भूला नहीं अब तक तुम्हारा वह विगट शरीर मैं ॥
 है कालचक्र सदा तुम्हारा चल रहा संसार में ,
 सर्वत्र तेजःपुञ्ज-सा है जल रहा संसार में ।
 पर देखने में चर्म के ये चक्षु अति असमर्थ हैं ,
 तब तो मनुज कर्तृत्व का अभिमान करते व्यर्थ हैं ॥
 किसकी महत्ता थी कि जिसने आज प्रण को पूर्ति की ?
 हिल जाय पत्ता तो कहीं सत्ता बिना इस मूर्ति की ।
 चलता 'सुदर्शन' यदि न तो दिन ढल गया होता तभी ,
 अर्जुन चितानल मे कभी का जल गया होता अभी ।
 होते तुम्हारे कार्य्य सारे गूढ भेदों से भरे ,
 हृदयस्थ, तुम जो कुछ कराते, मैं वही करता हरे ।
 अनुचित-उचित के ज्ञान को कुछ भी नहीं मैं जानता ;
 जो प्रेरणा करता विमल मन, मैं उसी को मानता ॥
 हों, एक बात अवश्य है”—रुक कर धनञ्जय ने कहा—
 “यद्यपि तुम्हारा ही किया है जो जगत में हो रहा !

बनते नहीं हो किन्तु उसके तुम स्वयं कारण कहीं .
 क्या ही चतुर हो, दोष-गुण करते स्वयं धारण नहीं ।”
 हँसते हुए तब पाथ बोले अन्य विध वचनावली—
 “गोविन्द, हो तो तुम बड़े ही क्रूर मायावी, छला ।
 रवि को छिपाने के प्रथम मुझको सचेत किया नहीं ;
 आजाय मरने की दशा ऐसी हँसी होती कही ?”
 हँसने लगे तब हरि अहा ! पूर्णेन्दु-सा मुख खिल गया ,
 हँसना उसी में भीम, अर्जुन, सात्यकी का मिल गया !
 ये मोद और विनोद के सब सरस भोके मेलते ,
 भगवान भक्तो से न जाने खेल क्या क्या खेलते ?
 उन्मत्त विजयोलास से सब लोग मत्त-गयन्द-से ,
 राजा युधिष्ठिर के निकट पहुँचे बड़े आनन्द मे ।
 देखा युधिष्ठिर ने उन्हें जब, जान ली निज जय तभी ,
 मुख चिह्न से ही चित्त की बुध जान लेते है सभी ॥
 तब अर्जुनादिक ने उन्हें बढ कर प्रणाम किया वहाँ ,
 सिर पर उन्होंने हाथ रख सुख दिया और लिया वहाँ ।
 सब लोग उनको घेरकर थे उस समय उत्सुक खड़े ,
 बोले युधिष्ठिर से स्वभूः सुन्दर सुमन मानों भड़े—
 “हे तात ! जीत हुई तुम्हारे पुण्य-पूर्ण प्रताप से ,
 रण में जयद्रथ-वध हुआ, छूटे धनञ्जय ताप से ।

तुमने इन्हें सौपा सवेरे था हमारे हाथ में ,
 सो लीजिये अपनी धरोहर, सुख-सुयश के साथ में ॥”
 सुनकर मधुर घन-शब्द को पाते प्रमोद मयूर ज्यों ,
 श्रीकृष्ण के सुन वचन खवको सुख हुआ भरपूर त्यों ।
 राजा युधिष्ठिर हर्ष से सहसा न कुछ भी कह सके ,
 थे भक्ति के गुरु-भाग से मानों वचन उनके थके ॥
 “आक्षात् चराचरनाथ, तुम रखते स्वयं जब हो दया ,
 आश्चर्य क्या फिर जो जयद्रथ युद्ध में मारा गया ?
 तो श्री इसे सुन कर हृदय में सुख समाता है नहीं ,
 साधन-सफलता-सुख-सदृश सुख दृष्टि आता है नहीं ॥
 बहु विज्ञ तत्त्वज्ञानियो ने बात यह मुझसे कही—
 साधव ! तुम्हें जो इष्ट होता सर्वदा होता वही ।
 अज्ञानता से मूर्ख जन मानव तुम्हें हैं मानते ,
 ज्ञानी, विवेकी, विज्ञवर, विश्वेश तुमको जानते ॥
 जो कुछ किया तुमने स्वयं हे देव-देव ! हुआ वही ,
 जो कुछ करोगे तुम स्वयं आगे वही होगा सही ।
 जो कुछ स्वयं तुम कर रहे हो, हो रहा अब है तथा ,
 हे हेतुमात्र सदैव हम, कर्ता तुम्हीं हो सर्वथा ॥
 हो निर्विकार तथापि तुम हो भक्तवत्सल सर्वदा ,
 हो तुम निरीह तथापि अद्भुत सृष्टि रचते हो सदा ।
 आकार-हीन तथापि तुम साकार सन्तत सिद्ध हो ,
 सर्वेश होकर भी सदा तुम प्रेम-वश्य प्रसिद्ध हो ।

करते तुम्हारा ही मनन, मुनि रत तुम्हीं से ऋषि सभी ,
 सन्तत तुम्हीं को देखते हैं ध्यान में योगीन्द्र सी ।
 विख्यात वेदों में विभो ! सबके तुम्हीं साध्य हो ,
 कोई न तुम से है बड़ा, तुम एक सबके साध्य हो ।
 पाकर तुम्हें फिर और कुछ पाना न रहता ज्ञेय है ;
 पाता न जब तक जीव तुमको भटकता शविशेष है ।
 जो जन तुम्हारे पद-कमल के अमृत गधु को जानते ,
 वे मुक्ति की भी कर अनिच्छा तुच्छ उसको मानते ॥
 हे सच्चिदानन्द प्रभो ! तुम नित्य सर्व शक्त हो ,
 अनुपम, अगोचर, शुभ, परात्पर ईश-वर अव्यक्त हो ।
 तुम ध्येय, गेय, अजेय हो, निज भक्त पर अनुरक्त हो ,
 तुम भवविमोचन, पद्म लोचन, पुण्य, पद्मासक्त हो ॥
 तुम एक होकर भी अहो ! रखते अनेकों वेश हो ,
 आद्यन्त-हीन, अचिन्त्य, अद्भुत, आत्म-भू अखिलेश हो ।
 कर्ता तुम्ही, भर्ता तुम्ही, हर्ता तुम्हीं हो सृष्टि के ,
 चारों पदार्थ दयानिधे ! फल हैं तुम्हारी दृष्टि के ॥
 हे ईश ! बहु उपकार तुमने सर्वदा हम पर किये ,
 उपहार प्रत्युपकार में क्या दें तुम्हें इसके लिए ?
 है क्या हमारा सृष्टि में ? यह सब तुम्ही से है बनी ,
 सन्तत ऋणी है हम तुम्हारे, तुम हमारे हो धनी ॥
 जय दीनबन्धो, सौख्य-सिन्धो, देव-देव, दयानिधे ,
 जय जन्म-मृत्यु-विहीन शाश्वत, विश्व-बन्ध, महाविधे ।

जय पूर्ण-पुरुषोत्तम, जनार्दन, जगन्नाथ, जगद्गते ,
 जय जय विभो, अच्युत हरे, मङ्गलमते, मायापते !”
 कहते हुए यों नृप युधिष्ठिर मुग्ध होकर रुक गये ,
 तत्क्षण अचेत-समान फिर प्रभु के पदों में झुक गये ।
 वद कर उन्हें हरि ने हृदय से हर्षयुक्त लगा लिया ,
 आनन्द ने सत्प्रेम का मानों शुभालिङ्गन किया ॥
 वह भक्त का भगवान से मिलना नितान्त पवित्र था ,
 प्रत्यक्ष ईश्वर-जीव का सङ्गम अतीव विचित्र था ।
 मानो सुकृत आकर स्वयं ही शील से थे मिल रहे ,
 युग श्याम-गौर सरोज मानों साथ ही थे खिल रहे ,
 करने लगे सब लोग तब आनन्द से जयनाद यों—
 त्रैलोक्य को हों दे रहे निर्भय विजय-संवाद ज्यों ।
 अन्यत्र दुर्लभ है भुवन में बात यों उत्कर्ष की ,
 सचमुच कहीं समता नहीं है भव्य भारतवर्ष की ॥
 दुख दुःशलादिक का अभी कहना यदपि अवशिष्ट है ,
 पर पाठकों का जी दुखाना अब न हमको इष्ट है ।
 कर वार वार क्षमार्थना होते विदा अब हम यही ,
 सुख के समय दुख की कथा अच्छी नहीं लगती कही ॥

श्रीमैथिलीशरण गुप्त लिखित काव्य—

साकेत ✓	४)	चन्द्रहास	१॥)
गुरुकुल	३)	तिलोत्तमा	
यन्नाधरा ✓	१॥)	अनघ	१।)
द्वापर	२)	किसान	॥)
सिद्धराज	१।)	शकुन्तला	॥)
हिन्दू	२)	नहुष ✓	॥=)
भारत-भारती	१॥)	विश्व-वेदना	॥)
जयद्रथ-वध	॥।)	कावा और कर्बला	१।)
झकार ✓	१॥)	कुणाल गीत	१॥)
पत्रावली	।=)	अर्जन और विसर्जन	।=)
वक संहार	॥)	वैतालिक	।=)
वन-वेभव	॥)	गुरुतेगवहादुर	।=)
सैरन्त्री	॥)	शक्ति	।=)
पञ्चवटी ✓	।=)	रङ्ग में भङ्ग	।=)
अजित	१॥)	विकट-भट	≡)
हिडिम्बा	॥।)	पृथिवीपुत्र	॥।)
प्रदक्षिणा	१)	अञ्जलि और अर्घ्य	॥।)

अनुवादित ग्रन्थ—

विरहिणी-व्रजाङ्गना	।=)	वीराङ्गना	२)
स्वाइयात उमरखैयाम		स्वप्न वासवदत्ता	१)
पलासी का युद्ध		मेघनाद-वध	

प्रबन्धक—साहित्य-सदन, चरगाँव (भाँसी)

श्रीसियारामशरण गुप्त की रचनाएँ—

आर्द्रा (कविता) १)	पाथेय (कविता)
विषाद ,, 1=)	दूर्वादल ,, १)
मौर्य-विजय ,, 1=)	आत्मोत्सर्ग ,, 11=)
अनाथ ,, 1=)	दैनिकी ,, 11=)
मृगमयी ,,	बापू ,, 11)
नांआखाली मे,, 11)	नकुल ,, १11)
गोद (उपन्यास) १1)	जयहिन्द ,, 1)
अन्तिम-आकाशा,,	पुण्य-पर्व (नाटक) १11)
नारी ,, १11)	उन्मुक्त (गीतनाट्य) १11)
मानुषी (कहानी-संग्रह १)	झूठ-सच (निबन्ध) २)
गीता-सवाद (गीता का समश्लोकी अनुवाद) १)	

अन्यान्य प्रकाशन—

सुमन १)	अकुर १)
हेमला सत्ता 11)	स्वास्थ्य-सद्यप १)
मधुकरशाह	पुरातत्त्न प्रसङ्ग १)
गोकुलदास	शैलकश १)
चित्राङ्गदा	प्रबन्ध-पुष्पाञ्जलि १)
गीता-रहस्य २11) !	सुनाल १)
बापू की बात (लेखक—श्री दामोदरदास रुंढेरेवाल) १)	

श्री श्रीप्रकाशजी द्वारा रचित और हमारे द्वारा प्रचारित—

गृहस्थ-गीता १1) मेरे विचार 11=) नागरिक शास्त्र १11)

भारत के समाज और इतिहास पर स्फुट विचार १1)

प्रबन्ध क.— साहित्य-सदन, चिरगाँव (भाँसी)

